



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 192]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 27, 2011/आश्विन 5, 1933

No. 192]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 27, 2011/ASVINA 5, 1933

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउंटेंट्स ऑफ  
इण्डिया

अधिसूचना

कोलकाता, 22 सितम्बर, 2011

सं. 18-सीडब्ल्यूए/9/2011.—लागत एवं कार्य लेखाकर अधिनियम, 1959 की धारा 18 की उप-धारा 5 के अनुपालन में संस्थान की परिषद् की वार्षिक रिपोर्ट और 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उक्त संस्थान के लेखा परीक्षक लेखे एतद्द्वारा सामान्य सूचना हेतु प्रकाशित किए गए हैं।

एम. गोपालकृष्णन, अध्यक्ष  
[विज्ञापन III/4/71/11/असा.]

52वीं वार्षिक रिपोर्ट, 2010—2011

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया परिषद् आप सभी का स्वागत करती है और आईसीडब्ल्यूआई के विभागों, समितियों, क्षेत्रों और स्कंधों की उपलब्धियों, गतिविधियों की 52वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता व्यक्त करती है। परिषद् ने अध्यक्ष के रूप में श्री बी.एम.शर्मा, उपाध्यक्ष के रूप में श्री एम. गोपालकृष्णन और अन्य केन्द्रीय परिषद् के सदस्यों के साथ 22 जुलाई, 2010 में अपना कार्य प्रारंभ किया।

I अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम :

1. डब्ल्यू टी ओ तथा अन्तर्राष्ट्रीय कार्य समिति

i. आईसीडब्ल्यूआई ने विभिन्न देशों के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीका) पर प्रतिक्रिया एम सी ए/वाणिज्य मंत्रालय को प्रस्तुत की।

ii. आईसीडब्ल्यूआई ने रांची में 25 मार्च 2011 को डब्ल्यू टी ओ तथा आई ए समिति की एक बैठक आयोजित की जो कोरम के अभाव में स्थगित हो गई थी।

iii. इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एकाउंटेंट्स (आईपीए), रूस; इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एकाउंटेंट्स (आई पी ए), आस्ट्रेलिया तथा आई सी एम ए एस एल, श्रीलंका के साथ समझौता ज्ञापनों (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए।

2. एस ए एफ ए कार्यकलाप

i. आईसीडब्ल्यूआई ने एस ए एफ ए के बैनर तले बंगलौर में क्रमशः 20 अक्टूबर 2010 को एस ए एफ ए की पी ए आई बी समिति की बैठक और दिनांक 21 अक्टूबर 2010 को "सतत धारणीय रिपोर्टिंग" पर अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया।

ii. आईसीडब्ल्यूआई के प्रतिनिधि ने मई 2011 में बर्लिन, जर्मनी में ई एफ ए यूरोपीय मंच में "एस ए एफ ए देशों में एस एम ई के लिए गैर-लेखा परीक्षा सेवाएं" विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया।

## II विभागीय कार्यकलाप

### क) अध्ययन निदेशालय

वर्ष 2010-11 के लिए क्षेत्र-वार पंजीकरण के आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं :

वर्ष	डब्ल्यू आई आर सी	एस आई आर सी	ई आई आर सी	एन आई आर सी	योग
2008-09	3,791	6,580	2,734	3,994	17,099
2009-10	5,327	8,905	3,488	5,436	23,156
2010-11	6,722	12,973	4,998	6,298	30,991

आधारभूत पाठ्यक्रम के लिए नामांकन

वर्ष	डब्ल्यू आई आर सी	एस आई आर सी	ई आई आर सी	एन आई आर सी	योग
2008-09	3,791	6,580	2,734	3,994	17,099
2009-10	2,356	6,401	1,319	3,223	13,299
2010-11	3,150	6,192	1,777	4,003	15,122

### क) विद्यार्थियों को प्रदत्त मूल्यवर्धित सेवाएं

(क) अध्ययन सामग्री; (ख) स्मरण परीक्षा प्रश्न पत्र; (ग) स्कैनर; (घ) कार्यपुस्तिका; (ड०) संग्रह; (च) कराधान कानून (प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कराधान, दोनों) में संशोधन

### ख) लेखांकन प्रमाण पत्र (सी ए टी)

कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से वर्ष 2008 में एक वर्षीय लेखांकन तकनीशियन प्रमाण पत्र (सी ए टी) पाठ्यक्रम शुरू किया गया नए पाठ्यक्रम का प्रचार-प्रसार करने के लिए, सी ए टी निदेशालय ने निम्नलिखित प्रमुख सकारात्मक पहलें कीं:

- श्री बलविंदर सिंह तथा जी.एन.वेंकटरामन की अध्यक्षता में लेखांकन तकनीशियनों के प्रशिक्षण हेतु समिति की दो बैठकें आयोजित की गई थीं।
- मौखिक कोचिंग कक्षाएं चलाने के लिए मान्यता प्राप्त मौखिक कोचिंग केंद्रों द्वारा दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप प्रदान किया गया।
- सी ए टी पाठ्यक्रम चलाने के लिए देश भर में 265 मौखिक कोचिंग केंद्रों को मान्यता प्रदान की गई है। लगभग 70 प्रतिशत आर ओ सी सी छोटों कस्बों में हैं।

- श्रीनगर में सी ए टी आर ओ सी सी के उद्घाटन के साथ ही श्री नगर (जम्मू व कश्मीर) को इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में 7 आर ओ सी सी खोलकर उसे भी आई सी डब्ल्यू ए आई के नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है। सातों केन्द्र राज्य के दूर-दराज के क्षेत्र में हैं।
- विशेष रूप से सी ए टी विद्यार्थियों के लिए परीक्षा केन्द्र शाहजहांपुर (उ०प्र०), अलवर (राज.), रायगढ़ (छत्तीसगढ़) और श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर) में खोले गए हैं।

### ग) परीक्षा निदेशालय

जून, 2010 की परीक्षा 11-18 जून, 2010 तक और दिसम्बर, 2010 की परीक्षा 10 दिसम्बर, 2010 से 17 दिसम्बर 2010 तक आयोजित की गई थी। सी ए टी परीक्षा भी आई सी डब्ल्यू ए आई परीक्षा के साथ आयोजित की गई थी। वर्ष 2002 की पाठ्यचर्चा के अन्तर्गत पिछली परीक्षा जून, 2010 सत्र में आयोजित की गई थी। पहली बार दिसम्बर, 2010 परीक्षा का अंक सत्यापन परिणाम वेबसाइट [www.icwai.org](http://www.icwai.org) पर डाला गया था। वार्षिक पुरस्कार वितरण जनवरी 2011 में चेन्नै में आयोजित राष्ट्रीय लेखा सम्मेलन के दौरान किया गया था।

### घ) सदस्यता निदेशालय

वर्ष के दौरान 1671 आवेदकों को सह-सदस्य के रूप में दाखिल किया गया था (इनमें से 24 सदस्य आई एम ए, यू एस ए के साथ एम ओ यू के आधार पर दाखिल किए गए थे) और 276 सह-सदस्यों को समुन्नत कर अधि-सदस्य बनाया गया था। शामिल सदस्यों का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :

विवरण	सह-सदस्य	अधि-सदस्य	पेशेवर सदस्य	जी आर ए डी सी डब्ल्यू ए
31.03. 2011 की स्थिति के अनुसार	25246	3899	1669	15298
31.03. 2010 की स्थिति के अनुसार	23884	3633	1581	14626

### ड०) अनुसंधान एवं पत्रिका निदेशालय

अनुसंधान एवं पत्रिका निदेशालय द्वारा सदस्यों, विद्यार्थियों और पाठकों के लाभार्थ मासिक पत्रिका "द मैनेजमेंट एकाउंटेंट" प्रकाशित की जाती है और इसका प्रयास यह रहता है कि वित्त/लागत के विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों तथा अर्थव्यवस्था, उद्योग एवं पर्यावरण से जुड़े मुद्दों के बारे में पाठकों में जागरूकता बढ़ायी जाए। आज की स्थिति के अनुसार मासिक

परिचालन लगभग 33000 अंकों का है जिनमें से 20000 अंक सदस्यों, 6000 अंक विद्यार्थियों, 1700 अंक अति विशिष्ट व्यक्तियों तथा विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय ख्याति के संस्थानों सहित सरकारी एजेंसियों एवं 700 अंकों का विदेश में परिचालन किया जाता है। निदेशालय की ई-गवर्नेंस योजना का उद्देश्य सदस्यों और गैर-सदस्य पाठकों के दीर्घावधिक विकास की आधारशिला रखना और उसे गति प्रदान करना है। वर्ष 2010-2011 में निदेशालय ने निम्नलिखित विषयों अर्थात् बजट, 2010 तथा आर्थिक नीति, डीटीसी एवं जीएसटी पर विशेष अंक प्रकाशित किए हैं। वर्ष के दौरान उसने जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण संरक्षण पर व्याख्यात्मक लेख शामिल करते हुए दो अनुसंधान बुलेटिन भी प्रकाशित किए हैं। पर्यावरण के प्रमुख पहलुओं पर गहन अनुसंधानपरक एवं विवेकपूर्ण लेखों तथा प्रकाशनों की पाठकों द्वारा प्रशंसा की गई थी। चैन्ने में जनवरी, 2011 में आयोजित 52वें राष्ट्रीय सम्मेलन में "अतिलघु लघु एवं मध्यम उद्यम संबंधी मोनोग्राफ" नामक पुस्तिका का विमोचन किया गया था। इस निदेशालय ने अनुसंधान बुलेटिन हेतु आई एस एस एन प्राप्त करने के लिए भी कदम उठाए हैं।

#### च) सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के एम सी ए -21 अनुप्रयोग के साथ आई सी डब्ल्यू ए आई के सदस्यों के डाटाबेस को जोड़ने के लिए एक अनुप्रयोग सेवा तैयार कर स्थापित की गई है।

संस्थान के आई टी कार्य बल ने क्षेत्रीय परिषदों और स्कंधों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही ऑनलाइन विद्यार्थी पंजीकरण प्रणाली (आई ई पी एस) के उन्नयन की सिफारिश की है। अतिरिक्त कार्यों को शामिल करते हुए इस प्रणाली का उन्नयन किया गया है ताकि अध्ययन, एफ एंड ए तथा सदस्यता निदेशालय द्वारा प्रयोग किए जा रहे आई सी डब्ल्यू ए आई के मौजूदा अनुप्रयोग (आई सी एम एस) के साथ एकीकरण सुकर बनाया जा सके। संस्थान की वेबसाइट को खोजपरक एवं उपयोगी बनाने के लिए उसे पुनः संरचित तथा पुनः अभिकल्पित किया गया है। सदस्यों और विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। संसाधन के पेशेवर सदस्यों के लिए नई दिल्ली में दिनांक 28 अप्रैल, 2011 को एक्स बी आर एल पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी।

#### छ) व्यावसायिक विकास निदेशालय

कारपोरेट मंत्रालय द्वारा दिनांक 1.7.2010 को एम सी ए -21 प्रमाणित फाइलिंग केन्द्र स्कीम (सी एफ सी) 3 वर्ष के लिए पुनः शुरू की गई थी ताकि 60 दिन की अवधि के भीतर आवेदन दायर किया जा सके।

संस्थान ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क (बोर्ड) (सी वी ई सी) के साथ दिनांक 13.04.2010 को समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) निष्पादित किया ताकि पेशेवर लागत लेखाकार दस्तावेजों के डिजिटलीकरण, दस्तावेजों की ऑनलाइन

फाइलिंग/अपलोडिंग, पंजीकरण, विवरणी -दावों, अनुमतियों तथा सूचनाओं आदि के लिए आवेदन जैसी विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं हेतु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर (ए सी ई एस) स्कीम के स्वचालन के अन्तर्गत प्रमाणित सुविधा केन्द्र (सी एफ सी) के रूप में कार्य कर सकें।

वर्ष के दौरान निदेशालय ने कई प्रकाशन निकाले जिनका विमोचन 52वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान किया गया था। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 11 अप्रैल, 2011 के सामान्य परिपत्र सं. 15/2011 के तहत लागत लेखाकार की नियुक्ति प्रक्रिया को संशोधित किया है। इस परिपत्र द्वारा अब निदेशक मंडल द्वारा की जाने वाली लागत लेखाकार की नियुक्ति हेतु किसी कंपनी की लेखा परीक्षा समिति प्रथम संदर्भ बिन्दु बन गई है। विशेषज्ञ दल ने यह सिफारिश की थी कि अलग-अलग उत्पाद/उद्योग आधारित लागत लेखांकन रिकार्ड के बजाय सरकार को सिद्धान्त आधारित समान लागत लेखांकन रिकार्ड नियम अपनाने चाहिए।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एम सी ए) ने अपने आदेश सं 52/26/सीएबी-2010 दिनांक 16 दिसंबर, 2010 के द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट 115 कंपनियों के संबंध में लागत लेखा परीक्षा आदेश जारी किए थे।

#### ज) प्रशिक्षण एवं रोजगार निदेशालय

इस समय 1185 विद्यार्थी व्यावहारिक प्रशिक्षण ले रहे हैं और 798 विद्यार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण से छूट प्रदान की गई है। हमारे विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए 489 कंपनियों को पैनल में रखा गया है। संस्थान ने जून, 10 तथा दिसम्बर, 10 के बैचों में के आई सी डब्ल्यू ए आई के उत्तीर्ण हुए नए विद्यार्थियों के लिए अंतिम रोजगार मिल चुका है। संस्थान ने रोजगार हेतु अपने सी वी दायर करने हेतु विद्यार्थियों को ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है। कुल 2405 विद्यार्थियों ने कैम्पस रोजगार का विकल्प चुना और इनमें से 1300 विद्यार्थियों को रोजगार मिल गया है।

#### झ) कराधान समिति के कार्यकलापों की रिपोर्ट

कराधान समिति ने लागत लेखाकारों की विशेषज्ञता को बरकरार रखने और आय के सही एवं उचित निर्धारण जैसे लागत संबंधी मुद्दों तथा प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2010 के खंड 314 (2) की तुलना में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 288 (2) के अन्तर्गत लागत लेखाकारों की सांविधिक मान्यता की मांग करते हुए राजस्व प्राधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदनों के जरिए कई पहलें की हैं। इस समिति ने प्रासंगिक महत्व के कई विषयों पर अवधारणा पत्र भी तैयार कर प्रस्तुत किए जिन पर प्राधिकारियों द्वारा सकारात्मक ढंग से विधिवत् विचार किया जा रहा है।

#### ञ) लागत लेखांकन मानक बोर्ड

वर्ष 2010-11 के दौरान बोर्ड की नौ बैठकें आयोजित की गई थीं। वर्ष के दौरान सी ए एस बी द्वारा सेवा लागत केन्द्र की लागत से संबंधित लागत लेखांकन मानक-13 (सी ए एस 13) को अंतिम रूप दिया गया था जिसे बाद में संस्थान की परिषद ने अनुमोदित कर जारी किया था। परिषद ने पेशेवर सदस्यों के लिए सी ए एस -13 के प्रयोग को अनिवार्य बना दिया है। वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा ऊपरी खर्चों से संबंधित संशोधित लागत लेखांकन मानक-3 के मसौदे को अंतिम रूप प्रदान कर उसे जारी किया गया था।

वर्ष 2010-11 के दौरान लागत लेखा आश्वासन मानक बोर्ड की कोई बैठक नहीं हुई।

### III. क्षेत्रों एवं स्कंधों के कार्यकलाप

#### क्षेत्रीय परिषद एवं स्कंध समन्वय समिति

समिति ने क, ख, ग और घ श्रेणी में सर्वोत्तम स्कंधों के चयन हेतु संबंधित क्षेत्रीय परिषदों की सिफारिश को स्वीकार किया और वर्ष 2010 के दौरान उनके उल्लेखनीय कार्य निष्पादन के प्रतीक के रूप में प्रशस्ति पत्र तथा धातु प्रतिमा प्रदान की।

श्रेणी	डब्ल्यू आई आर सी	एस आई आर सी	ई आई आर सी	एन आई आर सी
क	अहमदाबाद स्कंध	हैदराबाद स्कंध	कटक भुवनेश्वर स्कंध	चंडीगढ़ पंचकुला स्कंध
ख	सूरत दक्षिणी गुजरात स्कंध	कोयम्बटूर स्कंध	रांची स्कंध	लखनऊ स्कंध
ग	औरंगाबाद स्कंध	मैसूर स्कंध	दक्षिणी उड़ीसा स्कंध	जयपुर स्कंध
घ	जबलपुर स्कंध	नैल्लोर स्कंध	आसनसोल स्कंध	जोधपुर स्कंध

#### I. पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद :

डब्ल्यू आई आर सी समाचार पत्रिका का प्रतिमाह प्रकाशन किया जा रहा है जिसमें डब्ल्यू आई आर सी और इस क्षेत्र में उसके स्कंधों द्वारा समय-समय पर किए गए कार्यकलापों की सूचना होती है।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एम सी ए), भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार डब्ल्यू आई आर सी तथा उसके स्कंधों ने 14 से 21 दिसम्बर, 2010 तक के सप्ताह के दौरान कारपोरेट जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। डब्ल्यू आई आर सी परिसर में 18 दिसम्बर, 2010 को "निवेश आउटलुक 2011" विषय पर पहला सेमिनार आयोजित किया गया था। दूसरा

सेमिनार आयोजित 21 दिसम्बर, 2010 को एम. एल. दहनुकर कॉलेज, विले पार्ले, मुम्बई में आयोजित किया गया था।

डब्ल्यू आई आर सी के अधीन स्कंधों अर्थात् बड़ौदा, भोपाल, नागपुर, सूरत, दक्षिण गुजरात ने भी भारत कारपोरेट सप्ताह में सेमिनार आयोजित किए।

डब्ल्यू आई आर सी और इस क्षेत्र के स्कंधों ने भारत कारपोरेट सप्ताह के दौरान विभिन्न स्थानों पर 7 कार्यक्रम आयोजित किए और इन कार्यक्रमों में कई सदस्य उपस्थित हुए थे।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के निर्देशानुसार डब्ल्यू आई आर सी ने मंगलवार, 13 जुलाई, 2010 को सिडनहेम कॉलेज ऑफ कामर्स, चर्च गेट, मुम्बई में निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया था।

डब्ल्यू आई आर सी ने 1 से 3 अक्टूबर, 2010 तक महाबलेश्वर (महाराष्ट्र) में स्कंधों की एक बैठक तथा दो दिवसीय आन्तरिक अभिमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया था।

स्कंधों की बैठक का आयोजन दिनांक 1 अक्टूबर, 2010 को सीएमए बीएमए, अध्यक्ष, आई सी डब्ल्यू ए आई द्वारा किया गया था।

डब्ल्यू आई आर सी के क्षेत्रीय लागत सम्मेलन के साथ-साथ कल्याण में 24 दिसम्बर, 2010 को स्कंधों की बैठक आयोजित की गई थी जिसमें कई स्कंधों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

डब्ल्यू आई आर सी का तीसरा छात्र सम्मेलन का आयोजन लागत लेखाकारों के बड़ौदा स्कंध द्वारा दिनांक सोमवार, 24 जनवरी, 2011 को किया गया था।

जून, 2010 आई सी डब्ल्यू ए आई परीक्षाओं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए पांचवा कैम्पस साक्षात्कार 9 अक्टूबर, 2010 को बी जे टी आई, मतुगा में हुआ था और दिसम्बर, 2010 आई सी डब्ल्यू ए आई परीक्षाओं में पारित अभ्यर्थियों का छठा कैम्पस साक्षात्कार 16 अप्रैल, 2011 को एन एम कॉलेज ऑफ कामर्स, विले पार्ले (पश्चिम) मुम्बई में हुआ था। भागीदार कंपनियों द्वारा कई विद्यार्थियों को भर्ती किया था।

#### II. दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद :

राष्ट्रीय लागत सम्मेलन का आयोजन दिनांक 6,7 तथा 8 जनवरी, 2011 को चेन्नै में किया गया था जिसका मूल विषय था "न्यू एंटरप्राइज चैलेंज - सस्टेनेबिलिटी एंड वैल्यू क्रिसिशन"।

सम्मेलन के एक भाग के रूप में पेशेवरों तथा विद्यार्थियों का भी एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। मूल विषय था

“बिल्डिंग द प्रोफेशन—इन्क्लूसिव ग्रोथ आफ सी एम ए इन प्रैक्टिस”। विद्यार्थी सम्मेलन का मूल विषय था “टेक्नोलॉजी फॉर बिजनेस प्रोडक्टिविटी”।

क्षेत्रीय लागत सम्मेलन का आयोजन 29 तथा 30 अक्टूबर, 2010 को मदुरै में किया गया था जिसका मूल विषय था “कॉस्ट स्ट्रेटजीज टुवर्ड्स इन्क्लूसिव ग्रोथ एंड गवर्नंस”, दुसरे सी एम ए वैश्विक प्रबंधन लेखांकन सम्मेलन का आयोजन 29, 30 जून तथा 1 जुलाई 2010 को कोलम्बो में किया गया था जिसमें कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन से दक्षिणी क्षेत्र तथा केन्द्रीय परिषद् के एक प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया था जिसका नेतृत्व अध्यक्ष एस आई आर सी ने किया था और जिसमें लागत तथा प्रबंधन लेखाकर शामिल थे।

दिसम्बर, 2010 के दौरान भारत सरकार द्वारा “भारत कारपोरेट सप्ताह” के आयोजन के संबंध में एस आई आर सी द्वारा समूचे दक्षिण भारत में कई कार्यक्रमों (एम सी ए एवं आई सी डब्ल्यू ए आई द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित) का आयोजन किया गया था। इसके अलावा आई सी डब्ल्यू ए आई के निर्देशानुसार और एम सी ए, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम के रूप में वर्ष 2010-11 के दौरान एस आई आर सी ने निवेशक जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए थे।

आई सी डब्ल्यू ए आई के एस आई आर सी ने 31 जुलाई, 2010 को स्कंधों की एक बैठक आयोजित की थी।

कैम्पस भर्ती कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर 3 अप्रैल, 2010 को एस आई आर सी परिसर में प्रैस सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें चेन्नै दूरदर्शन के प्रतिनिधि सहित कई चैनलों ने भाग लिया था। कैम्पस भर्ती कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर एस आई आर सी परिसर में 9 अक्टूबर, 2010 को एस आई आर सी परिसर में दूसरा प्रैस सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें कई निजी तथा दूरदर्शन चैनलों ने भाग लिया था। एक और प्रैस सम्मेलन का आयोजन 3 अक्टूबर, को किया गया था जिसमें हमारे अध्यक्ष श्री बी एम शर्मा, उपाध्यक्ष श्री एम. गोपालकृष्णन, डॉ. आई. अशोक, अध्यक्ष एस आई आर सी तथा अन्य क्षेत्रीय एवं आई सी डब्ल्यू ए आई की केन्द्रीय परिषद् के सदस्यों ने भाग लिया था। सम्मेलन के दौरान अध्यक्ष ने संस्थान की भावी कार्यनीतियों को रेखांकित किया था।

### III. पूर्वी भारत क्षेत्रों में परिषद् :

ई आई आर सी के सदस्यों की 51वीं ए जी एम 31 जुलाई, 2010 को आयोजित की गई थी। वर्ष के दौरान वित्तीय निष्पादन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

वर्ष 2010-11 के दौरान पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या 5878 थी जबकि वर्ष 2009-10 में 2976 विद्यार्थी पंजीकृत किए गए थे। वर्ष के दौरान 2498 विद्यार्थियों को डाक द्वारा कोचिंग के लिए नामांकित किया गया था और 2608 विद्यार्थियों ने कोचिंग पूरी कर कोचिंग पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किए थे। ई आई आर सी सदस्यों और विद्यार्थियों के लिए “ई आई आर सी न्यूज” नामक एक मासिक समाचार पत्रिका प्रकाशित की। वर्ष के

दौरान कई कैम्पस साक्षात्कार हुए थे। निम्नलिखित प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए थे :

1. दिनांक 28 अगस्त, 2010 को ई आई आर सी परिसर में सदस्यों की खुली बैठक आयोजित की गई थी।
2. दिनांक 4 अक्टूबर, 2010 को सदस्यों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
3. 4 दिसम्बर, 2010 को “नागरिक चार्टर/ग्राहक चार्टर” पर सदस्यों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
4. 17 दिसम्बर, 2010 को ई आई आर सी ने भारत कारपोरेट सप्ताह मनाते हुए निवेश की जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया था।
5. 18 दिसम्बर, 2010 को ई आई आर सी परिसर में पेशेवरों की बैठक आयोजित की गई थी।
6. 5 मार्च, 2011 को ई आई आर सी ने केन्द्रीय बजट 2011-12 पर चर्चा बैठक आयोजित की थी।
7. 9 मार्च, 2011 को ई आई आर सी ने ई आई आर सी परिसर में एम एस एम ई पर एक कार्यक्रम आयोजित किया था।
8. 21 मई, 2011 को ई आई आर सी में निवेशक जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया था।
9. 29 अगस्त, 2010 को ई आई आर सी परिसर में विद्यार्थियों के लिए आई एफ आर एस पर एक सेमिनार आयोजित किया गया था।
10. इंटरमीडियट कर रहे विद्यार्थियों के लिए सुलभ कुशलता विकास पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
11. ई-फाइलिंग पर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी जिसमें श्री मृत्युंजय आचारजी, प्रमुख, अन्तरिक लेखा परीक्षा बामर लॉरी विजिटिंग लैक्चरर, आई आई एम अतिथि वक्ता थे।

### IV. उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद्

वित्त वर्ष के दौरान निम्नलिखित आयोजन हुए थे :

1. 16 नवम्बर, 2010 को दिल्ली में कैरियर मेला
2. “कारपोरेट गवर्नंस प्रैक्टिसेज एंड चैलेंजेज” पर सदस्यों की बैठक—17 दिसम्बर, 2010
3. लागत लेखांकन मानकों पर सेमिनार— 5 फरवरी, 2011
4. बजट 2011— एक विश्लेषण, 11 मार्च, 2011

स्कंध के कार्यकलाप थे— इलाहाबाद में निवेशक जागरुकता, मिर्जापुर में निवेशक जागरुकता, रक्तदान शिविर, विद्यार्थी बैठक, चंडीगढ़ में दीवाली मनाना तथा पूंजी बाजार दस्तावेज, फरीदाबाद में आई एफ आर एस की जानकारी, कैम्पस रोजगार, जयपुर में पूंजी बाजार तथा बजटिंग एवं कराधान परिवर्तनों तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वित्त की भूमिका पर एक सेमिनार, जोधपुर में अति लघु अर्थव्यवस्थाओं में व्यावसायिकों की भूमिका पर सेमिनार।

### समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट

सेवा में, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

1. हमने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ("संस्थान") और इसकी चार क्षेत्रीय परिषदों तथा 90 स्कंधों (संस्थान, क्षेत्रीय परिषदों और स्कंध जिन्हें सामूहिक रूप से "समूह" कहा गया है) के संलग्न समेकित वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा की है जिनमें 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन पत्र और उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित आय एवं व्यय लेखा तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एवं उसके साथ संलग्न अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है। ये वित्तीय विवरण संस्थान के प्रबंधन की जिम्मेवारी हैं और इन्हें पृथक वित्तीय विवरणों तथा ऐसे संघटकों से संबंधित अन्य सूचना के आधार पर तैयार किया गया है जो भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समेकित वित्तीय स्थिति तथा समेकित वित्तीय निष्पादन को ध्यान में रखते हुए सत्य और उचित स्थिति प्रदान करते हैं। हमारी जिम्मेवारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने की है।

2. हमने अपनी लेखा परीक्षा भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाते हैं और लेखा परीक्षा करते हैं कि क्या समेकित वित्तीय विवरण वास्तविक गलत बयानी से मुक्त हैं। किसी लेखा परीक्षा में परीक्षण आधार पर समेकित वित्तीय विवरणों में उल्लिखित राशि तथा प्रकटनों के समर्थनकारी साक्ष्य की जांच शामिल होती है। किसी लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों और लगाए गए प्रमुख लेखांकन अनुमानों का निर्धारण और समग्र वित्तीय विवरण के प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी योग्य लेखा परीक्षा राय का उचित आधार प्रदान करती है।

3. (क) हमने चार क्षेत्रीय परिषदों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है जिनके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार 23,26,44,479 की कुल परिसंपत्तियों तथा तब समाप्त वर्ष के लिए 14,54,49,161 के कुल राजस्व को प्रदर्शित किया गया है जैसा कि वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है। हमारे लेखा परीक्षकों द्वारा इन वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय सूचना की लेखा परीक्षा की है जिनकी रिपोर्टें संस्थान के प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई हैं। और हमारी राय में जहां तक ये इन क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में शामिल राशियों का संबंध है, इन लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर ही आधारित हैं।

(ख) हमने 42 स्कंधों के वित्तीय विवरणों की भी लेखा परीक्षा नहीं की है जिनके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार, 14,47,76,737 रूपए की कुल परिसंपत्ति और उस समय समाप्त वर्ष के लिए 10,10,54,732 रूपए की कुल आय प्रदर्शित की गई है जिनकी लेखा परीक्षा अन्य चार्टर्ड एकाउंटेंटों द्वारा की गई है। हमने 38 स्कंधों के वित्तीय विवरणों की भी लेखा परीक्षा नहीं की है जिनके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार, 21,46,00,989 रूपए की कुल परिसंपत्ति और उस समय समाप्त वर्ष के लिए 13,78,18,343 रूपए का कुल राजस्व प्रदर्शित किया गया है जिसे लागत लेखाकारों ने सत्यापित किया है। जहां तक इसका संबंध इन स्कंधों के संबंध में शामिल राशियों से है, हमारी रिपोर्ट इन प्रमाणित वित्तीय विवरणों पर ही आधारित है जिन पर आई सी डब्ल्यू ए आई ग्रुप की समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी जांच के प्रयोजनार्थ संस्थान के प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए अनुसार भरोसा किया गया है।

(ग) हमने 10 स्कंधों के वित्तीय विवरणों की भी लेखा परीक्षा नहीं की है जिनके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार, 2,20,37,304 रूपए की कुल परिसंपत्ति और उस समय समाप्त वर्ष के लिए 1,23,11,695 रूपए की कुल आय प्रदर्शित की गई है। हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि इन स्कंधों के वित्तीय विवरणों के संबंध में हमने संस्थान के प्रबंधन द्वारा यथासत्यापित अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर भरोसा किया है। इन स्कंधों के संबंध में शामिल राशियों का जहां तक संबंध है, हमारी राय इन प्रमाणित वित्तीय विवरणों पर ही आधारित है। चूंकि ये वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए हैं, जिन्हें इन स्कंधों के प्रबंधन द्वारा संकलित किया गया था, इसलिए उनकी शेष राशि के किसी समायोजन से समेकित वित्तीय विवरणों पर परिणामी प्रभाव पड़ सकता है।

(घ) जैसा कि अनुसूची 16 पर टिप्पणी ख.1 में उल्लेख किया गया है, तीन स्कंधों के मामले में 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं थे।

4. जहां तक इसका संबंध इन समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल संस्थान के प्रचालन में और वित्तीय विवरणों से है, हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। :-

(i) अनुसूची-16 की टिप्पणी ख.12 में किए गए उल्लेख के अनुसार माफी हेतु संस्थान की अपील का निपटान लंबित रहने तक सिडको द्वारा लगाए गए 111.64 लाख रूपए के जुर्माने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(ii) अनुसूची-16 की टिप्पणी ख.15 में किए गए उल्लेख के अनुसार 0.11 लाख रूपए की पट्टा भूमि 23.01 लाख रूपए की फ्रीहोल्ड भूमि और 5.55 लाख रूपए के भवनों के लिए हक विलेख हमारी जांच के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

(iii) क्षेत्रीय परिषदों और स्कंधों के साथ लेनदेन की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार किए जाने की जरूरत है और दिल्ली कार्यालय की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में भी आगे सुधार की जरूरत है।

5. अनुसूची 16 पर टिप्पणी ख.6 में किए गए उल्लेख के अनुसार, क्षेत्रीय परिषदों और कुछेक स्कंधों से शेष राशि की पुष्टि प्रदर्शित है। इन शेष राशियों का मिलान और ऐसी पुष्टि प्राप्त होने के बाद परिणामी समायोजन किया जाना आवश्यक है।

6. अनुसूची-16 पर टिप्पणी ख (iv) (क) में किए गए उल्लेखानुसार एल आई सी द्वारा यथा संगणित 36,18,372 की उपदान देयता का प्रावधान नहीं किया गया है।

7. "वर्तमान देयता और प्रावधान" के अंतर्गत अनुसूची 10 पर 13,103,485 रूपए के प्रावधान में 72,13,485 रूपए की राशि शामिल है, जो विविध लेनदारों के स्वरूप में देयता के प्रावधान का द्योतक है।

8. अनुसूची 16 पर टिप्पणी 8 में किए गए उल्लेख के अनुसार क्षेत्रीय परिषदों की लेखांकन नीतियों में अंतर है जिसके प्रभाव का न तो निर्धारण किया गया है और न बताया गया है। स्कंधों द्वारा अपनाई गई नीतियां भी उपलब्ध नहीं हैं।

9. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि उपर्युक्त मद 4 (ii), 4 (iii), 5 और 8 पर विचार किए बिना इनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता था यदि उपर्युक्त मद 4 (i) और 6 में हमारे द्वारा अभिमत व्यक्त न किए होते, तो वर्ष के लिए अधिशेष 38,80,92,645 रूपए (40,28,75,017 के सूचित आंकड़ों की तुलना में) सामान्य निधि 117,07,26,126 रूपए रही होती (118,55,08,498 रूपए के सूचित आंकड़ों की तुलना में)।

10. उपर्युक्त पैरा 4.5.6.7 और 8 में उल्लिखित मामलों के अधीन रहते हुए:

(क) हम रिपोर्ट करते हैं कि संस्थान के प्रबंधन द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा (संस्थान की लेखांकन नीतियों के अनुरूप मुख्यालय द्वारा किए गए कुछेक समायोजनों के बाद) जारी किए गए लेखांकन मानक 21 (समेकित वित्तीय विवरण) की अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

(ख) संस्थान की लेखा परीक्षा और क्षेत्रीय परिषदों और स्कंधों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों से संबंधित पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्टों और ऊपर उल्लिखित समूह के संघटकों की अन्य वित्तीय सूचना तथा स्कंधों के प्रमाणित वित्तीय विवरणों एवं समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल उपर्युक्त पैरा 3 (घ) में उल्लिखित स्कंधों के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर भी विचार करने के आधार पर और हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा हमें प्रदत्त स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारी राय में संलग्न समेकित वित्तीय विवरण और उनके साथ संलग्न टिप्पणियां भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप निम्नलिखित के संबंध में सही और उचित स्थिति प्रदर्शित करते हैं :

(i) 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार समूह के कार्यों के समेकित तुलन पत्र, और

(ii) अनुसूची 16 पर टिप्पणी क.4 और क.5 में उल्लिखित आधार पर उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समूह के व्यय पर अधिक आय का समेकित आय एवं व्यय लेखा।

कृते गुप्ता एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

पंजीकरण सं.: 301028 ई

एस के. गांगुली

भागीदार

सदस्यता सं. 6622

स्थान : कोलकाता

दिनांक: 22 सितंबर, 2011

## दि इन्स्टीट्यूट ऑफ़ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स आफ़ इंडिया

31 मार्च 2011 के अनुसार तुलन पत्र

वित्त वर्ष 2009-2010	विवरण	अनुसूची सं.	इस वर्ष 2010-2011	
			रु.	रु.
	संस्थान निधि :			
738,121,402	सामान्य निधि	(1)		1,185,508,498
5,913,533	कर्मचारी उपदान निधि	(2)		4,987,633
2,616,686		(3)		2,629,577
4,035,430	विविध पुरस्कार निधि	(4)		4,198,641
94,924,690	अन्य निधि	(5)		77,920,743
845,611,741	कुल			1,275,245,092
	द्वारा प्रदर्शित :			
	स्थिर परिसम्पत्तियाँ	(6)		
212,902,869	क) सकल ब्लॉक		279,960,020	
102,918,641	ख) ऋण मूल्यहास		122,360,772	
109,984,228	ग) निवल ब्लॉक			157,599,248
5,119,134	चल रहा पूंजीगत कार्य			13,186,429
98,111	निवेश	(7)		98,100
818,554,076	वर्तमान परिसम्पत्तियाँ	(8)	1,155,057,209	
20,270,929	ऋण और अग्रिम	(9)	57,233,568	
838,825,005			1,212,290,777	
109,676,410	ऋण : वर्तमान देयताएं और प्रावधान	(10)	109,228,717	
729,148,595	निवल वर्तमान परिसम्पत्तियाँ			1,103,062,060
1,261,673	विविध खर्च			1,299,255
	(बढ़े खाते नहीं डालने की सीमा तक)			
845,611,741	कुल			1,275,245,092
	लेखाओं की टिप्पणियाँ	(16)		

ऊपर संदर्भित अनुसूचियों लेखाओं का भाग है

संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते गुप्ता एंड कंपनी  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्सराकेश सिंह  
उपाध्यक्षएम. गोपालकृष्णन  
अध्यक्षएस.के. गांगुली  
भागीदार  
सदस्यता सं. 6622

आर एन पाल

कोलकाता

दिनांक : 22 सितम्बर, 2011

## वि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स आफ इंडिया

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा वर्ष

विवरण	अनुसूची सं.	इस वर्ष 2010-2011 रु.
पिछला वर्ष 2009-2010 रु.		
<b>आय:</b>		
15,479,090 सदस्यता और अन्य शुल्क	(11)	17,287,212
520,721,975 द्यूशन और अन्य शुल्क	(12)	648,399,322
75,012,230 परीक्षा एवं अन्य शुल्क	(13)	103,595,569
30,533,692 जारी शिक्षा कार्यक्रम प्राप्ति		34,564,283
7,821,938 राष्ट्रीय पुरस्कार और अभिसमय प्राप्ति		14,363,771
814,415 पत्रिका अंशदान		930,500
109,550 पत्रिका के लिए विज्ञापन		298,816
986,692 किराया प्राप्ति		1,183,474
801,911 प्रकाशन की बिक्री		402,593
44,119,582 ब्याज		54,617,116
5,695,717 अन्य आय		9,036,002
<b>702,096,792 कुल</b>		<b>884,678,658</b>
<b>व्यय:</b>		
132,242,813 संस्थापना	(14)	140,482,513
61,232,144 अन्य खर्च	(15)	69,147,468
365,306 लेखा परीक्षा शुल्क		494,255
205,566 आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क		322,593
8,131,915 यात्रा और केन्वेन्स		10,580,339
28,221,328 परीक्षा व्यय		38,409,503
16,973,011 परिषद और समिति की बैठक का खर्च		19,631,150
1,013,453 अधिकरण सहित चुनाव व्यय		1,013,453
5,430,937 पत्रिका व्यय		7,076,113
1,516,073 विदेशी निकायों की सदस्यता अंशदान		1,692,980
1,710,695 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और बैठकें		2,593,769
24,058,081 जारी शिक्षा कार्यक्रम व्यय		25,987,865
4,543,329 लागत उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार पर व्यय		16,915,627
21,327,967 व्यावसायिक विकास व्यय		9,231,634
69,392,717 कोचिंग व्यय		85,282,158
26,038,275 प्रयोग की गई अध्ययन सामग्री और विवरणिका		30,207,314
199,468 प्रयोग किया गया प्रकाशन स्टॉक		241,982
1,616,613 बड़े खाते डाला गया अधल स्टॉक		610,814
806,491 विविध कर्जदार-बड़े खाते डाले गये		1,343,079
18,477,898 मूल्यहास	(6)	20,903,318
<b>423,504,080 कुल</b>		<b>482,167,927</b>
<b>278,592,712 व्यय पर आय के आधिक्य के रूप में शेष सी/डी</b>		<b>402,510,731</b>
1,262,652 समायोजित पूर्ववर्ती अवधि		364,286
<b>279,855,364 व्यय पर आय के आधिक्य के रूप में शेष राशि को सामान्य निधि में अंतरित किया गया</b>		<b>402,875,017</b>
लेखाओं के लिए दिश्याव	(16)	
ऊपर दी गई अनुसूचियों लेखाओं का हिस्सा है		
हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार	राकेश सिंह उपाध्यक्ष	एम. गोपालकृष्णन अध्यक्ष
कृते गुप्ता एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स	आर एन पाल वरिष्ठ निदेशक (एफ एण्ड ए)	
एस.के.गंगुली भागीदार सदस्यता सं. 6622 कोलकाता		
दिनांक : 22 सितम्बर, 2011		



## दि इन्स्टीट्यूट ऑफ़ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स आफ़ इंडिया

अनुसूची जो लेखाओं का भाग है

अनुसूची सं. 1 सामान्य निधि 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार

पिछला वर्ष 2009-2010 रु.	विवरण	इस वर्ष 2010 - 2011	
		रु.	रु.
448,877,006	पूर्ववर्ती तुलन पत्र के अनुरूप शेष		738,121,402
	योग		
3,250,140	i) चैप्टर की भूमि और भवन का पूंजीकरण	39,764,632	39,764,632
452,127,146			
	ऋण:		
	i) निम्न के तहत समायोजन		
501,893	अध्ययन सामग्री और विवरणिका का स्टॉक	3,597,151	3,597,151
451,625,253			
955,185	योग: प्रवेश शुल्क (सदस्य)	1,307,398	
5,685,600	पंजीकरण शुल्क (विद्यार्थी)	7,037,200	8,344,598
458,266,038			
279,855,364	योग: आय और व्यय		402,875,017
	लेखों के अनुसार वर्ष के लिए निवल अधिशेष		
738,121,402	कुल		1,185,508,498

अनुसूची सं. 2 कर्मचारी उपदान निधि 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार

5,285,261	पूर्ववर्ती तुलन पत्र के अनुरूप शेष	5,913,533
757,305	जोड़िए: वर्ष के लिए अंशदान	306,693
6,042,566		6,220,226
-	घटाएं: न्यास को प्रदत्त राशि	1,232,593
129,033	ऋण: वर्ष के दौरान कर्मचारियों को प्रदत्त उपदान	-
5,913,533	कुल	4,987,633

अनुसूची सं. 3 कर्मचारी लाभार्थ निधि 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार

2,183,418	पूर्ववर्ती तुलन पत्र के अनुरूप शेष	2,616,686
421,782	जोड़िए: वर्ष के दौरान अंशदान	7,518
42,500	जोड़िए: वर्ष के लिए निधि के सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	39,543
31,014	घटाएं: वर्ष के दौरान कर्मचारियों को प्रदत्त	34,170
2,616,686	कुल	2,629,577

अनुसूची सं. 4 विविध पुरस्कार निधि 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार

3,738,196	पूर्ववर्ती तुलन पत्र के अनुसार शेष	4,035,430
246,316	जोड़िए: वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	286,180
206,831	जोड़िए: वर्ष के दौरान जमा आय	103,260
(155,913)	घटाएं: पुरस्कार की लागत	(226,229)
4,035,430	कुल	4,198,641

अनुसूची सं. 5 अन्य निधि 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार

48,879,998	भवन निधि	49,532,129
7,709,827	पुस्तकालय निधि	17,354,752
400,000	रजत जयन्ती निधि	256,141
323,849	सीएएसबी निधि	286,098
37,611,016	विविध निधि	10,491,623
94,924,690	कुल	77,920,743

अनुसूची सं. ६

स्थिर परिसम्पत्तियाँ  
31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार

परिसम्पत्तियों का विवरण	सकल बाँट				मूल्य ह्रास परिसमाप्त				निचले बाँके	
	आरम्भिक लागत 01.04.2010	अवधि के दौरान अभिवृद्धि	घटायें अवधि के दौरान स्थिर परिसम्पत्तियों की विक्री/वसयीजन	31.03.2011 के अनुसार कुल	01.04.2010 तक	वर्ष के लिए	जोड़े/(घटायें) वर्ष के दौरान स्थिर परिसम्पत्तियों का मूल्यह्रास समायीजन	31.03.2011 तक	इस वर्ष 2010-2011	पिछले वर्ष 2009-2010
मूल परिसम्पत्तियाँ:										
फीहोल्ड भूमि	18,531,761	5,496,433	-	24,028,194	283,463	-	-	283,463	23,744,731	18,248,298
पट्टा पर भूमि	6,505,802	475,913	-	6,981,715	1,546,450	102,878	-	1,649,328	5,332,387	4,959,352
फीहोल्ड भवन	102,619,730	45,738,584	-	148,358,314	46,416,587	8,409,676	-	54,826,263	93,532,051	56,203,143
फर्नीचर और फिटिंग्स	23,832,898	3,755,026	-	27,587,924	10,761,287	1,967,397	-	12,728,684	14,859,240	13,071,611
पुस्तकालय की पुस्तकें	8,808,784	-	217,384	8,591,400	8,808,784	1,353,315	(1,570,699)	8,591,400	-	-
कार्यालय उपकरण	20,339,631	3,995,330	-	24,334,961	9,718,389	2,504,187	-	12,222,576	12,112,385	10,621,242
जेनेरेटर	1,829,698	1,054,161	-	2,883,859	1,031,495	223,010	-	1,254,505	1,629,354	798,203
लिट	416,062	850,000	-	1,266,062	387,072	131,849	-	518,921	747,141	28,990
मोटर कार	499,939	-	-	499,939	214,870	50,024	-	264,894	235,045	285,069
कम्प्यूटर	26,470,507	2,300,543	-	28,771,050	21,736,861	2,950,035	109,512	24,796,408	3,974,642	4,733,646
साइकिल	5,528	2,840	-	8,368	5,528	-	-	5,528	2,840	-
अमूर्त परिसम्पत्तियाँ:										
साफ्टवेयर	3,042,529	3,605,705	-	6,648,234	2,007,855	3,210,947	-	5,218,802	1,429,432	1,034,674
पूर्ववर्ती वर्ष	212,902,869	67,274,535	217,384	279,960,020	102,918,641	20,903,318	(1,461,187)	122,360,772	157,599,248	109,984,228
	197,168,957	17,440,697	(1,706,785)	212,902,869	97,152,933	18,477,898	(12,712,190)	102,918,641	100,016,024	5,119,134

पूँजीगत कार्य प्रगति पर

13,186,429

5,119,134

अनुसूची सं. 7 निवेश (लागत पर) 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार :

पिछला वर्ष 2009-2010 रु.	विवरण	इस वर्ष 2010-2011 रु.
	सहकारी न्यास के शेयर	
500	10 रु० प्रत्येक के 50 शेयर	500
	रोहित चैम्बर प्रेमिसेस को-आपरेटिव सोसाइटी लि०, मुम्बई (पूर्व में जय वृंदावन प्रेमिसेस ट्रस्ट फंड, मुम्बई)	
11	कोयम्बटूर को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि० (अभ्यर्पित)	-
	म्युचुअल फंड (यूटीआई 64 और टाटा अपारच्युनिटी फंड)	
16,100	मदुरई चैप्टर	16,100
81,500	नेल्लोई पर्ल सिटी चैप्टर	81,500
98,111	कुल	98,100

अनुसूची सं. 8: वर्तमान परिसंपत्तियाँ 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार

स्टॉक :		
2,293,134	—प्रकाशन स्टॉक (लागत पर)	3,087,267
599,367	—पेपर स्टॉक (लागत पर)	67,500
20,571,252	—विवरणिका लागत सहित अध्ययन	20,812,422
1,424,015	—अन्य सामग्री का स्टॉक (लागत) सामग्री (लागत पर)	1,021,828
7,207,071	विविध दर्जदार	9,335,119
26,150,213	अन्य प्राप्तित्व	17,567,355
	नकद और बैंक शेष	
871,699	उपलब्ध नकद	1,492,584
1,055	उपलब्ध डाक टिकट	100,589
17,006,699	उपलब्ध चेक	
	अनुसूचित बैंकों के पास शेष	
24,459,826	वर्तमान खाते पर	32,864,376
25,271,063	वर्तमान बचत खाता	30,143,113
692,698,682	बैंकों के पास सावधि जमा:	1,038,565,056
818,554,076	कुल	1,155,057,209

अनुसूची सं. 9 : ऋण और अग्रिम 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार

1,542,531	कर्मचारियों को भवन ऋण	885,959
22,473	कर्मचारियों को वाहन खरीद अग्रिम	687,991
9,579,429	अन्य अग्रिम	44,792,642
922,172	कर्मचारियों को त्यौहार अग्रिम	941,300
844,911	विदेशी निकायों को सदस्यता अंशदान अग्रिम	947,380
2,771,108	टीडीएस प्राप्ति	4,925,803
1,897,602	पूर्वप्रदत्त खर्च	1,723,722
2,690,703	जमा	2,328,771
20,270,929	कुल	57,233,568

अनुसूची सं. 10 : वर्तमान देयताएं और प्राक्धान 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार

पिछला वर्ष 2009-2010	विवरण	इस वर्ष 2010-2011
रु.		रु.
	वर्तमान देयताएं :	
5,009,345	पुस्तकालय जमा	5,450,312
10,053,883	विभिन्न देनदार	12,163,251
88,920,468	अन्य देयताएं	78,301,327
121,478	देय टीडीएस	210,342
5,571,236	प्राक्धान	13,103,485
109,676,410	कुल	109,228,717

प्राक्धानों की अनुसूची

पिछला वर्ष 2009-2010	विवरण	इस वर्ष 2010-2011
रु.		रु.
	मुख्यालय	
-	- व्यावसायिक विकास	3,500,000
-	- कर्मचारी कल्याण	1,200,000
40,000	सहकारी ऋण संस्था को अनुदान	1,040,000
150,000	- दर और कर	150,000
	व्यय हेतु प्राक्धान	
1,453,235	- एस आई आर सी	2,687,655
1,789,588	- एन आई आर सी	1,928,192
2,138,413	- डबल्यू आई आर सी	2,597,638
5,571,236	कुल	13,103,485

अनुसूची सं. 11 : सदस्यता और अन्य शुल्क 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार

पिछला वर्ष 2009-2010	विवरण	इस वर्ष 2010-2011
रु.		रु.
11,529,198	वार्षिक सदस्यता शुल्क	13,692,585
835,679	सदस्य कार्य प्रमाण पत्र शुल्क	877,979
1,427,872	ग्रेड सी.डबल्यू.ए. शुल्क	1,535,536
22,500	सदस्य शिकायत / बहाली शुल्क	10,000
397,523	प्रमाणित सुविधा केन्द्र शुल्क	66,500
1,266,318	सदस्यता और प्रमाणन शुल्क -आईएमए (अमेरिका)	1,104,612
15,479,090	कुल	17,287,212

अनुसूची सं. 12 : ट्यूशन और अन्य शुल्क 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार

8,528,400	विद्यार्थी पंजीकरण शुल्क	10,555,800
18,276,540	व्यावहारिक प्रशिक्षण पंजीकरण शुल्क	24,306,249
675,880	व्यावहारिक प्रशिक्षण छूट शुल्क	924,500
268,065,317	ट्यूशन शुल्क	336,281,779
13,213,544	कैट पाठ्यक्रम आय	13,023,947
105,602,192	कंप्यूटर प्रशिक्षण शुल्क	131,339,450
86,652,256	सेवा शुल्क	108,009,822
3,654,980	कोचिंग पूरी करने संबंधी प्रमाण पत्र का पुनः वैधीकरण शुल्क	3,063,805
9,425,659	विवरणिका की बिक्री	15,001,823
1,850,142	अध्ययन नोट्स की बिक्री	529,158
4,709,135	पुस्तकालय अंशदान	5,315,641
67,930	डाक कोचिंग, पुनः वैधीकरण और डेनोवो प्रपत्र की बिक्री	47,348
520,721,975	कुल	648,399,322

अनुसूची सं. 13 : परीक्षा और अन्य शुल्क 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार

69,624,617	परीक्षा शुल्क	97,652,654
784,363	उत्तर पत्र की जाँच का शुल्क	982,722
1,870,530	स्केनर सहित उत्तर की बिक्री सुझावित	1,744,982
2,732,720	परीक्षा प्रपत्र की बिक्री	3,215,211
75,012,230	कुल	103,595,569

अनुसूची सं. 14 : सदस्यता और अन्य शुल्क 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार

पिछला वर्ष 2009-2010	विवरण	इस वर्ष 2010-2011
रु.		रु.
96,787,688	वेतन और भत्ते	112,831,609
15,266,383	कर्मचारी उपदान निधि में नियोक्ता का अंशदान	2,783,285
7,168,955	कर्मचारी भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान	9,495,424
119,188	कर्मचारी लाभार्थ निधि में नियोक्ता का अंशदान	141,512
6,091,705	कर्मचारी अवकाश नकदीकरण निधि में नियोक्ता का अंशदान	7,827,441
2,418,422	कर्मचारी अवकाश नकदीकरण—विद्यमान	2,531,018
2,578,212	चिकित्सा व्यय	3,334,835
519,200	कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा भत्ता	655,100
216,185	आरपीएफसी प्रशासन और ईडीएल आई निरीक्षण प्रभार	415,480
1,076,875	प्रशिक्षण और विकास (एचआरडी)	466,809
<b>132,242,813</b>	<b>कुल</b>	<b>140,482,513</b>

अनुसूची सं. 15 : कार्यालय व्यय 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार

6,374,435	मुद्रण और स्टेशनरी	6,620,961
6,929,790	डाक, तार, दूरभाष और फैक्स	7,886,565
4,674,368	विद्युत प्रभार	5,314,286
146,009	जेनरेटर और व्यय	716,654
1,534,714	दर और कर	1,456,148
161,573	बीमा	273,279
10,099,049	मरम्मत और रख-रखाव	7,175,955
1,330,061	कार पर खर्च	1,964,022
14,300	आकस्मिक धन जमा पर ब्याज	6,800
2,434,826	अध्ययन सामग्री वितरण व्यय	2,438,759
1,526,807	विधिक प्रभार	2,715,053
364,510	बैंक प्रभार	277,727
2,128,200	कंप्यूटर रखरखाव खर्च	2,759,332
2,224,474	जन संपर्क व्यय	2,720,046
443,811	सुरक्षा संबंधी व्यय	868,424
654,721	पुस्तक और पत्रिकाएं	652,466
130,754	प्रतिनिधि शुल्क	167,719
139,220	राजपत्र अधिसूचना	133,346
2,413,102	कर्मचारी कल्याण	3,264,728
2,568,702	किराया	4,443,444
8,949,753	प्रशासनिक प्रभार	7,869,856
5,988,965	विविध व्यय	9,421,898
<b>61,232,144</b>	<b>कुल</b>	<b>69,147,468</b>

**अनुसूची-16****क. प्रमुख लेखांकन नीतियां****1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार**

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत अभिसमय, भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (लागू लेखांकन मानक), लागत एवं कार्य लेखाकार (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथासंशोधित लागत एवं कार्य लेखाकार अधिनियम, 1959, के संगत प्रावधानों के अंतर्गत तैयार किया जाता है और जब तक अन्यथा बताया न गया हो, संग्रहण आधार पर हैं।

**2. समेकन का आधार:**

मुख्यालय और उसकी 4 क्षेत्रीय परिषदों और 91 चैप्टरों के वित्तीय विवरणों को परिसंपत्तियां और देयताएं, आय और व्यय की समान मदों के बुक मूल्यों को जोड़कर लाइन दर लाइन आधार पर समेकित किया जाता है, इसमें सभी वास्तविक अंतरा समूह शेषों और अंतरा समूह सौदों जिनके परिणामस्वरूप अप्राप्त अधिशेष और घाटा हुआ हो, को हटाने के बाद और अलग-अलग लेखांकन नीतियों के लिए जहां भी अपेक्षित हो, आवश्यक समायोजन करके किया जाता है।

**3. प्रवेश शुल्क**

सदस्यों से प्रवेश शुल्क को पूंजी में परिणत किया जाता है।

**4. पूंजीकरण शुल्क**

विद्यार्थियों से प्राप्त पूंजीकरण शुल्क को उसके 2/5वें हिस्से तक पूंजी में परिणत किया जाता है।

**5. आय को मान्यता देना :**

संस्थान आय के महत्वपूर्ण मदों को निम्नलिखित आधार पर मान्यता देता है :-

**(क) सदस्यों का अंशदान**

सदस्यों के अंशदान और कार्य करने के प्रमाण-पत्र के शुल्क के संबंध में आय को उस स्थिति में मान्यता दी जाती है, जहां ऐसी राशि की प्राप्ति सुनिश्चित हो।

**(ख) ट्यूशन और अन्य शुल्क**

डाक और मौखिक ट्यूशन शुल्क से प्राप्त राजस्व को जब भी विद्यार्थी नामांकित हो, मान्यता दी जाती है।

**(ग) प्रकाशन की बिक्री**

प्रकाशनों की बिक्री से प्राप्त आय को तब मान्यता दी जाती है जब ऐसे प्रकाशनों को किसी कीमत पर प्रयोक्ता को हस्तांतरित किया जाता है।

**(घ) परीक्षा शुल्क**

परीक्षा शुल्क से प्राप्त आय को प्राप्त होने पर मान्यता दी जाती है।

**(ङ) अन्य**

कायकम और अनुसंधान शुल्क से प्राप्त आय को ऐसे कार्यकलाप को शुरू किए जाने पर मान्यता दी जाती है।

**(च) ब्याज**

बैंकों में रखे सावधि जमा पर ब्याज से प्राप्त आय को समयानुपात आधार पर बकाया राशि और प्रयोज्य दर पर विचार करते हुए मान्यता दी जाती है।

(छ) निवेशों से आय को भुगतान प्राप्त करने के अधिकार के सिद्ध होने पर मान्यता दी जाती है।

**6. व्यय**

व्यय को निम्नलिखित मामलों को छोड़कर डाक और मौखिक कोचिंग से संबंधित खर्चों सहित संग्रहण आधार पर मान्यता दी जाती है:

(i) चैप्टरों को वार्षिक अनुदान को उन्हें संवितरित किए जाने पर मान्यता दी जाती है।

(ii) चुनाव पर होने वाले खर्च को परिषद के कार्यकाल के अनुपात में मान्यता दी जाती है।

**7. स्थायी परिसंपत्तियां**

स्थायी परिसंपत्तियों को संग्रहित मूल्यहास को लागत से घटाकर व्यक्त किया जाता है। लागत में खरीद कीमत और परिसंपत्ति को लक्षित उपयोग हेतु कार्यशील स्थिति में लाने के लिए वहन की गई कोई लागत शामिल होती है। निर्माणाधीन परिसंपत्तियों को प्रगतिशील पूंजीगत कार्य के रूप में दर्शाया जाता है।

**8. मूल्यहास/परिशोधन :**

(क) स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास को आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार लिखित मूल्य पद्धति पर दर्शाया जाता है।

(ख) पट्टाधारक भूमि को पट्टा अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है। पट्टे वाली भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रदत्त प्रीमियम को पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है। भूमि का किराया, यदि कोई हो, को उस वर्ष जिसमें ऐसे प्रभार बकाया या देय हों, के खर्च में मान्यता दी जाती है।

(ग) पुस्तकालय की पुस्तकों में खरीद के वर्ष में 100 प्रतिशत का मूल्यहास होता है।

**9. निवेश**

दीर्घावधिक निवेशों को लागत के रूप में व्यक्त किया जाता है। तथापि, जब दीर्घावधिक निवेशों के मूल्य में अस्थायी से इतर गिरावट आती है, तक उत्तरवर्ती राशि गिरावट को मान्यता देने के लिए घटाई जाती है।

**10. मालसूची**

विवरणिका स्टॉक आदि समेत प्रकाशन स्टॉक, अध्ययन सामग्रियाँ और पेपर स्टॉक का मूल्य लागत या निवल प्राप्त मूल्य, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रकाशनों और धन सामग्रियों की लागत भारित औसत आधार पर निर्धारित की जाती है और कागज की लागत फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आधार पर निर्धारित की जाती है।

**11. प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों का लेखांकन**

(i) किसी प्रावधान को मान्यता दी जाती है:-

(क) जब पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व हो

(ख) यह संभावित हो कि दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्वाह अपेक्षित है; और

(ग) दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो।

(ii) निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान को मान्यता नहीं दी जाती है :-

(क) कोई संभावित दायित्व जो पूर्ववर्ती घटना से उत्पन्न हुआ हो और जिसकी मौजूदगी की पुष्टि एक या उससे अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं, जो संस्था के पूर्णतः नियंत्रण में न हो, के होने अथवा नहीं होने द्वारा ही होती हो।

(ख) कोई वर्तमान दायित्व जो पूर्व की घटनाओं से उत्पन्न हुआ हो, परंतु उसे मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि ऐसी संभावना नहीं है कि दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधन का कोई बहिर्वाह अपेक्षित होगा या दायित्व की राशि का कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता हो।

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में व्यक्त किया जाता है। इनका नियमित अंतराल पर आंकलन किया जाता है और दायित्व के केवल उसी हिस्से जिसके लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना हो, के लिए अत्यधिक दुर्लभ परिस्थितियों जहां कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जाता हो, को छोड़कर प्रावधान किया जाता है।

**12. विदेशी मुद्रा सौदे**

विदेशी मुद्रा में सौदे की तारीख को प्रचलित विनिमय दर में व्यक्त किया जाता है। मौद्रिक मद्रों को अंतिम दर का प्रयोग करके दर्शाया जाता है। मौद्रिक मदों के निपटान या उस दर जिस पर उन्हें आरंभ में रिकॉर्ड या रिपोर्ट किया गया था, से भिन्न दर पर मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग से उत्पन्न विनिमय मदों को उनके उत्पन्न होने की अवधि में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

**13. कर्मचारी लाभ:**

(i) अल्पावधिक लाभ

अल्पावधिक कर्मचारी लाभ को अवधि के दौरान दावे के समय व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। दावा न की गई राशि निम्न के लिए उपबंधित है।

(ii) नौकरी के बाद के लाभ जैसे भविष्य निधि, उपदान, अवकाश नकदीकरण आदि-अलग-अलग क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों में यथा लागू दरों के अनुसार प्रदान किए जाते हैं।

**14. परिसंपत्तियों का नुकसान**

तुलन पत्र की तारीख को नुकसान वाली परिसंपत्तियाँ यदि कोई हों, की पहचान की जाती है और यथापेक्षित आवश्यक प्रावधान किए जाते हैं।

**15. पूर्ववर्ती अवधि आय/व्यय**

पूर्ववर्ती अवधि की मदों, जो एक या उससे अधिक पूर्ववर्ती अवधि में वित्तीय विवरण तैयार करने में त्रुटियों अथवा चूकों के परिणामस्वरूप वर्तमान अवधि में उत्पन्न होती हैं, को आय और व्यय खातों में अलग से प्रकट किया जाता है।

**ख. टिप्पणियाँ जो लेखाओं का हिस्सा हैं**

1. समेकित वित्तीय विवरण मुख्यालय, 4 क्षेत्रीय परिषदों और झागराखंड-चिरिमिरी, राजकोट और अजमेर-भीलवाड़ा को छोड़कर 90 चैप्टरों पर विचार करते हुए तैयार किया जाता है (संदर्भ-अनुबंध)।

2. आयकर में छूट आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के साथ पठित धारा 10 (23क) के अंतर्गत प्रदान की गई है। तदनुसार आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

3. संस्थान द्वारा रखी जाने वाली सभी पुरस्कार निधियाँ परिषद के निर्णय के अनुसार तत्संबंधी सावधि जमा में संगत निवेश के साथ लेखाओं में शामिल की गई हैं।

4. विविध खर्चों में शामिल है : (बट्टे खाते में नहीं डाले जाने की सीमा तक)

(i) मुख्यालय के 10,96,892 रूपए (2011-15) की राशि के चुनाव से संबंधित खर्च (आंशिक) को लेखांकन नीति के अनुसार अगले 4 वर्षों में मान्यता दी जानी है। (संदर्भ नीति सं.6 (ii))

(ii) 202,363 रूपए का आस्थगित राजस्व व्यय (कल्याण-अम्बरनाथ-81,600 रूपए, गुडगांव-8,923 रूपए और जयपुर-111,840 रूपए)

5. अन्य अग्रिमों में परिषद के कतिपय भूतपूर्व सदस्यों से एम सी ए, भारत सरकार द्वारा भत्तों से इतर राशि के कारण बकाया 1,36,097 रूपए (पूर्ववर्ती वर्ष में 2,88,384 रूपए) शामिल हैं और इस समय यह मामला न्यायाधीन है। तथापि, एक सदस्य की मृत्यु होने पर 1,52,287 रूपए समायोजित किए गए हैं।

6. संस्थान के चालू खाते का शेष और ऋण और अग्रिम पुष्टि के अधीन है।

7. 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार, संस्थान के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर 'सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास

अधिनियम, 2006" के अंतर्गत यथापरिभाषित ब्याज समेत कोई राशि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय नहीं है।

8. (i) मुख्यालय:

(क) भविष्य निधि अंशदान इस्टीमेट ऑफ कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि न्यास को किए जाते हैं।

(ख) उपदान अधिनियम, 1972 (यथासंशोधित) के अनुसार उपदान के संबंध में देयता को सामूहिक उपदान नीति, के तहत एल आई सी आई को किए गए अंशदान के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(ग) छुट्टी नकदीकरण के संबंध में देयता को एल आई सी आई के पास रखे अनुमोदित छुट्टी नकदीकरण निधि में अंशदान के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(ii) डब्ल्यू आई आर सी

(क) उपदान अधिनियम, 1972 (यथासंशोधित) के अनुसार उपदान के संबंध में देयता को सामूहिक उपदान नीति, के तहत एल आई सी आई को किए गए अंशदान के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(ख) व्ययों की प्रतिपूर्ति नकद रूप में की जाती है।

(ग) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को 3 वर्ष की अवधि के लिए परिशोधित किया गया है और इसके प्रभाव का तत्काल पता नहीं लगाया जा सकता है।

(iii) एस आई आर सी

(क) भविष्य निधि, परिवार पेंशन निधि और जमा संबद्ध बीमा के लिए अंशदान संग्रहणीय आधार पर खाबद्ध किए जाते हैं।

(ख) उपदान और छुट्टी नकदीकरण के संबंध में देयता को बीमाकीय मूल्य निर्धारण के आधार पर एल आई सी आई को प्रदत्त वार्षिक प्रीमियम के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(ग) कोचिंग शुल्क को कोचिंग की वास्तविक अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है और इसके प्रभाव का तुरंत पता नहीं लगाया जा सकता है।

(घ) कोचिंग शुल्क बिक्रियों पर कमीशन, कार्यक्रम शुल्क, ब्याज आय से इतर आय को प्राप्ति आधार पर मान्यता दी जाती है। इस परिवर्तन के प्रभाव का तत्काल पता नहीं लगाया जा सकता है।

(ङ) स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास को खरीद की तारीख पर दिचार किए बिना पूरे वर्ष के लिए लगाया जाता है और इसके प्रभाव का तुरंत पता नहीं लगाया जा सकता है।

(च) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को 3 वर्ष की अवधि के लिए परिशोधित किया गया है और इसके प्रभाव का तत्काल पता नहीं लगाया जा सकता है।

(iv) ई आई आर सी

(क) उपदान निधि को 10,00,000 रूपए की बढ़ाई गई सीमा के साथ एल आई सी आई के पास रखा जाता है। एल आई सी आई द्वारा

यथापरिकलित 36,18,372 रूपए की परिणामी उपदान देयता को वित्तीय वर्ष 2010-11 के वार्षिक लेखों में दर्शाया नहीं गया है।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदान को एस बी आई के पास रखे गए लोक भविष्य निधि खाते में जमा किया जाता है। तथापि, क्षेत्रीय परिषद ने साविधिक भविष्य निधि के पास पंजीकरण का निर्णय लिया है।

(v) एन आई आर सी

(क) उपदान के संबंध में देयता को सामूहिक उपदान नीति के तहत एल आई सी आई को किए गए अंशदान के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(ख) 19,27,692 रूपए का प्रावधान पुरानी पुस्तकों के स्टॉक, चैप्टरों को दिए गए ऋण और उन पर लगाए गए ब्याज के संबंध में संभवतः अपेक्षित किसी बट्टे खाते को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

(ग) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को 3 वर्ष की अवधि के लिए परिशोधित किया गया है और इसके प्रभाव का तत्काल पता नहीं लगाया जा सकता है।

9. वर्तमान वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष के लिए चल रहे मरम्मत के कार्य पर खर्च निम्नानुसार है :

क. सं.	मुख्यालय/क्षेत्रीय परिषद/चैप्टर	वर्तमान वर्ष (2010-11)	पूर्ववर्ती वर्ष (2009-10)
01.	मुख्यालय	107,45,450	-
02.	कोचीन	6,63,475	1,26,339
03.	त्रिशूर	20,050	-
04.	विशाखापट्टनम	-	53,250
05.	कटक-भुवनेश्वर	62,081	-
06.	धनबाद-सिधारी	391,905	3,91,905
07.	आसनसोल	-	14,74,172
08.	दुर्गापुर	-	17,70,000
09.	कोटा	13,03,468	13,03,468
	कुल	131,86,429	51,19,134

10. वर्तमान वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान निम्नलिखित राशि को बट्टे खाते में डाला गया है :

क. सं.	मद	वर्तमान वर्ष (2010-11)	पूर्ववर्ती वर्ष (2009-10)
क	पुरानी अध्ययन सामग्री और सुझाए गए उत्तर		
01.	मुख्यालय	68,181	14,88,498
02.	विजयवाड़ा	783	-
03.	विशाखापट्टनम	5,580	19,473
04.	भिलाई	46,444	-



05.	भोपाल	2,70,313	-
06.	जगदलपुर	89	-
07.	नसिक	47,115	-
08.	सूरत-दक्षिण गुजरात	4,461	-
09.	चंडीगढ़-पंचकुला	1,58,018	-
10.	गोरखपुर	9,830	-
11.	एन आई आर सी	-	19,153
12.	जगदलपुर	-	2,000
13.	कटक-भुवनेश्वर	-	8,489
14.	पुणे	-	79,000
	कुल	6,10,814	16,16,613
ख	पुराने और गैर-वसूली योग्य कर्जदार		
01.	मुख्यालय	880,319	5,66,491
02.	विशाखापट्टनम	18,000	-
03.	ई आई आर सी	22,105	-
04.	दुर्गापुर	221,825	-
05.	राउरकेला	1,000	-
06.	गोरखपुर	9,830	-
07.	पुणे	1,00,000	1,89,558
08.	हरिद्वार-ऋषिकेश	90,000	
09.	साउथ उड़ीसा	-	10,000
10.	पटना	-	17,657
11.	बोकारो स्टील सिटी	-	13,000
12.	फरीदाबाद	-	9,785
	कुल	13,43,079	8,06,491

11. वर्तमान वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रावधान किया गया है :

क्र. सं.	मद	वर्तमान वर्ष (2010-11)	पूर्ववर्ती वर्ष (2009-10)
01.	मुख्यालय		
	- व्यावसायिक विकास	35,00,000	-
	- कर्मचारी कल्याण	12,00,000	-
	- सहकारी ऋण सोसायटी को अनुदान	10,40,000	40,000
	- दरें और कर	1,50,000	1,50,000
02.	एस आई आर सी	26,87,655	14,53,235
03.	एन आई आर सी	19,28,192	17,89,588
04.	डब्ल्यू आई आर सी	25,97,638	21,38,413
		1,31,03,485	55,71,236

12. सिडको, नवी मुंबई द्वारा संस्थान को एक पट्टाधारक भूमि आबंटित की गई थी और निर्माण में देरी के कारण जुलाई, 2011 तक 111.64 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। जुर्माने को माफ करने और निर्माण को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देने के लिए प्राधिकरण को आवेदन किया गया है। निर्णय अभी लिया जाना है और वर्तमान वर्ष में कोई समायोजन नहीं किया गया है।

13. वर्तमान वर्ष के लिए लेखा परीक्षा शुल्क में सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क के 1,21,330 रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 1,10,300 रुपए) और क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों की 3,72,925 रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 2,55,006 रुपए) की लेखा परीक्षा शुल्क की राशि शामिल है।

14. वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में व्यय निम्नानुसार था :

- सदस्यता शुल्क-16,92,980 रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 15,16,073 रुपए)
- विदेश यात्रा-13,74,724 रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 9,01,401 रुपए)

15. मुख्यालय की बंहियों में पूंजी के रूप में परिणत भूमि और भवन के नाम विलेख के संबंध में संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है :

(लाख रुपए में)

मुख्यालय के पास उपलब्ध विलेख का वर्गीकरण वास्तविक	फ्रीहोल्ड भूमि	पट्टाधारक भूमि	भवन
60.05	3.11	361.11	
फोटोकॉपी	79.8	56.44	120.21
उपलब्ध नहीं	23.01	0.11	5.55
कुल	162.86	59.66	486.87

16. पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के समूहन के अनुसरण में जहां कहीं आवश्यक हो पुनः समूहित और पुनः व्यवस्थित किया गया है।

अनुसूची सं.1 से 16 तक हस्ताक्षर

राकेश सिंह  
उपाध्यक्ष

एम. गोपाल कृष्णन  
अध्यक्ष

आर.एन.पाल  
वरिष्ठ निदेशक-एफ एंड ए

दिनांक: 22 सितंबर, 2011

वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए वार्षिक लेखों की प्राप्ति की स्थिति

अनुबन्ध-1

डब्ल्यू आई आर सी के अंतर्गत चैप्टर		एस आई आर सी के अंतर्गत चैप्टर		ई आई आर सी के अंतर्गत चैप्टर		एन आई आर सी के अंतर्गत चैप्टर	
क्र. सं.	चैप्टर का नाम	क्र. सं.	चैप्टर का नाम	क्र. सं.	चैप्टर का नाम	क्र. सं.	चैप्टर का नाम
1	डब्ल्यू आई आर सी	1	ई आई आर सी	1	एन आई आर सी	1	एस आई आर सी
2	अहमदाबाद	2	अगरतला	2	अजमेर-भीलवाड़ा #	2	बंगलौर
3	औरंगाबाद	3	आसनसोल	3	इलाहाबाद	3	भद्रावती-सिमोगा
4	बडोदा	4	बेकारो स्टील सिटी	4	चंडीगढ़-पंचकुला	4	कोचीन
5	भिलाई	5	कटक भुवनेश्वर	5	देहरादून	5	कोयम्बटूर
6	भोपाल	6	धनबाद-सिन्दरी	6	फरीदाबाद	6	गोदावरी
7	बिलासपुर	7	दुर्गापुर	7	गाजियाबाद	7	हैदराबाद
8	चन्द्रपुर	8	गुवाहाटी	8	गोरखपुर	8	कोटागुडम
9	गोआ	9	हजारीबाग	9	गुडगाव	9	कोटयम
10	इंदौर-देवास	10	हावड़ा	10	हरिद्वार-ऋषिकेश	10	मदुरै
11	जबलपुर	11	जयपुर-कैओन्झर	11	जयपुर	11	मंगलौर
12	झारखंड-चिरिमिरी #	12	जमशेदपुर	12	जालन्धर	12	मेतूर सेलम
13	कल्याण अम्बरनाथ	13	खडगपुर	13	जम्मू-श्रीनगर	13	मैसूर
14	कोल्हापुर सांगली	14	नाइहाटी-इचापुर	14	झांसी	14	नेल्लई पर्ल सिटी
15	कोरबा	15	पटना	15	जोधपुर	15	नेल्लूर
16	कोकण	16	राजपुर	16	कानपुर	16	नेवेली
17	कच्छ-गांधी धाम	17	रांची	17	कोटा	17	पालाक्कड
18	नागपुर	18	राउरकेला	18	लखनऊ	18	पाडिचरी
19	नवी-मुंबई	19	सबलपुर	19	लुधियाना	19	रानीपेट वेल्लूर
20	नसिक-ओझर	20	सेरमपोर	20	नागल	20	तिरुचिरापल्ली
21	पुणे	21	सिल्वर	21	नोएडा	21	त्रिशूर
22	रायपुर	22	सिलीगुड़ी-गंगटोक	22	पटियाला	22	त्रिवेन्द्रम
23	राजकोट #	23	साउथ उड़ीसा	23	उदयपुर	23	उक्कुनगरम
24	सुरत-साउथ गुजरात	24	तलचर-अंगुल			24	विजयवाड़ा
25	विन्ध्यनगर					25	विशाखपट्टनम

# शामिल नहीं

## **THE INSTITUTE OF COST AND WORKS ACCOUNTANTS OF INDIA**

### **NOTIFICATION**

Kolkata, 22<sup>nd</sup> September, 2011

**No. G/18-CWA/9/2011.**—In pursuance of Sub-Section 5 of Section 18 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Annual Report of the Council of the Institute and the Audited Accounts of the said Institute for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2011 are hereby published for general information.

M. Gopalakrishnan, President  
[ADVT III/4/71/11/Ext'y.]

### **52<sup>nd</sup> ANNUAL REPORT, 2010-2011**

The Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India welcome all of you and takes pleasure in presenting this 52<sup>nd</sup> Annual Report giving the achievements, activities of Departments, Committees, Regions and Chapters of the ICWAI. The Council started their journey from 22<sup>nd</sup> July 2010 with Presidentship of Shri B.M. Sharma, Vice-President Shri M. Gopalakrishnan and other Central Council Members.

#### **I. INTERNATIONAL EVENTS :**

##### **1. WTO and International Affairs Committee**

- i. ICWAI submitted response to Comprehensive Economic Cooperation Agreement (CECA) with various countries to MCA/Ministry of Commerce.
- ii. ICWAI Organised a meeting of WTO and IA Committee on 25<sup>th</sup> Mar, 2011 at Ranchi, adjourned due to lack of Quorum.
- iii. MoUs were signed with Institute of Professional Accountants (IPA), Russia; Institute of Public Accountants (IPA), Australia and ICMASL, Sri Lanka.

##### **2. SAFA Activities**

- i. ICWAI organised meeting of PAIB Committee of SAFA on Oct 20, 2010 and International Seminar on 'Sustainability Reporting' under the banner of SAFA on 21<sup>st</sup> Oct, 2010 respectively at Bangalore.
- ii. Representative of ICWAI made a presentation at Berlin, Germany on 'Non Audit Services for SMEs in SAFA Countries' at the European Forum of EFAA in May, 2011.

#### **II. DEPARTMENT ACTIVITIES :**

##### **A) Directorate of Studies -**

Region-wise Registration figures for 2010-11 are as below:

Year	WIR C	SIRC	EIRC	NIRC	Total
2008-09	3,791	6,580	2,734	3,994	17,099
2009-10	5,327	8,905	3,488	5,436	23,156
2010-11	6,722	12,973	4,998	6,298	30,991

Enrolment to the Foundation Course:

Year	WIRC	SIRC	EIRC	NIRC	Total
2008-09	3,791	6,580	2,734	3,994	17,099
2009-10	2,356	6,401	1,319	3,223	13,299
2010-11	3,150	6,192	1,777	4,003	15,122

#### **Value Added Services provided to students:**

- (a) Study Materials; (b) Revisionary Test Papers; (c) Scanner; (d) Work book; (e) Compendium; (f) Amendments to Taxation Laws (for both Direct and Indirect Taxation).

#### **B) Certificate of Accounting (CAT) -**

The Certificate in Accounting Technician (CAT) Course of one year duration was launched in the year 2008 in consultation with the Ministry of Corporate Affairs, Government of India. In order to spread the new course, CAT Directorate took the following pro-active vital initiatives:

- Two meetings of the Committee for Training of Accounting Technicians under the Chairmanship of Shri Balwinder Singh and G N Venkataraman were conducted.
- Finalised Guidelines for conducting oral coaching classes by Recognized Oral Coaching Centres.
- 265 Oral Coaching Centres have been recognized across the country for imparting CAT Course. Almost 70% of the ROCCs are in small towns.
- Srinagar (J&K) has been brought in the net work of the ICWAI with the inauguration of CAT ROCC at Srinagar. Likewise, Himachal Pradesh has also been brought in the net work of ICWAI with opening of 7 ROCCs there. All the 7 centres are located in remote places of the State.
- Examination Centres exclusively for CAT Students have been opened at Shahjahanpur (UP), Alwar (Rajasthan), Raigarh (Chattisgarh) and Srinagar (J&K).

#### **C) Examinations Directorate -**

The June 2010 examination was held from 11-18 June 2010 and in Dec 2010 examination was held from 10 Dec 2010 to 17 Dec 2010. CAT examination was also held along with ICWAI examination.

The last examination under 2002 syllabus was conducted in June 2010 term. For the first time, Marks Verification result of December 2010 examination was hosted in the website [www.icwai.org](http://www.icwai.org).

Annual prize distribution was held during the National Cost Convention at Chennai in January 2011.

**D) Membership Directorate -**

During the year, 1671 candidates were admitted as Associate members (out of which 24 were admitted on the basis of MOU with IMA, USA) and 276 Associate Members were elevated as Fellow Members. The details are indicated in the following table:

PARTICULARS	ASSOCIATE	FELLOW	MEMBERS IN PRACTICE	GRAD CWA
AS ON 31.3.2011	25246	3899	1669	15298
AS ON 31.3.2010	23884	3633	1581	14626

**E) Research & Journal Directorate -**

The Research & Journal Directorate publishes monthly journals 'The Management Accountant' for the benefit of members, students and readers and it endeavors to promote awareness amongst readers in different functional areas of finance/cost and management issues related to economy, industry and environment. Monthly Circulation, as on date, is around 33000 nos, out of which about 20000 to Members, 6000 to students, 1700 to VIPs and Government agencies including Universities and Institutes of National repute and 700 to abroad. The e-Governance plan of the Directorate seeks to lay the foundation and provide the impetus for long-term growth of readers among and from non members also. In 2010-2011, the Directorate has published special issues on the following topics viz., Budget 2010 and Economic Policy, DTC and GST. They have also published two Research Bulletins during the year containing illuminating articles on Climate Change & Environment Protection. Rigorously researched and well written articles on important aspects of environment were received and the publications were appreciated by the readers. A booklet titled "Monograph on Micro, Small & Medium Enterprises" was released during the 52nd National Convention held at Chennai in Jan 2011. This Directorate has also taken steps to obtain ISSN for the Research Bulletin.

**F) Information Technology Directorate -**

An Application Service has been developed and deployed to integrate the Members Database of ICWAI with the MCA - 21 Application of the Ministry of Corporate Affairs.

The IT Task Force of the Institute recommended the upgradation of online student registration system (IEPS) being used by Regional Councils and Chapters. The system has been upgraded to incorporate additional functionalities to facilitate integration with existing application (ICMS) of

ICWAI being used by Studies, F&A and Membership Directorates. The website of the Institute has been re-structured and re-designed to make it easy to navigate and search. Online facilities for the members and students have been provided. One day workshop on XBRL was organised for the practising members of the Institute on Apr 28, 2011 at New Delhi.

**G) Professional Development Directorate**

The MCA21-Certified Filing Centre Scheme (CFC) was relaunched for 3-years by Ministry of Corporate Affairs (MCA) on 01-07-2010 for making application within a period 60 days.

The Institute entered into Memorandum of Understanding (MOU) with Central Board of Excise & Customs (CBEC) on 13-04-2010 to enable practicing Cost Accountants to act as Certified Facilitation Centre (CFC) under Automation of Central Excise and Service Tax (ACES) Scheme for various online Services, such as, Digitisation of documents, on-line filing/ uploading of documents, Application for Registration, Returns, Claims, Permissions and Intimations etc..

During the year, this Directorate brought out the a number of publications and these were released during 52nd National Cost Convention.

The Ministry of Corporate Affairs (MCA), vide its General Circular number 15/2011 dated April 11, 2011, has amended the procedure of appointment of Cost Auditor. The circular has now made the Audit Committee of a Company as the first point of reference for appointment of cost auditor to be made by the Board of Directors. The Expert Group had recommended that instead of individual product/industry based cost accounting records, the Government should adopt principle based uniform cost accounting record rules.

Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide its Order No. 52/26/CAB-2010 dated the 16th December, 2010 issued the cost audit order on 115 companies specified therein.

**H) Training and Placement Directorate -**

1185 students are currently undergoing practical training and 798 students have been given exemption from practical training. 489 companies have been empanelled for imparting training to our students. Institute completed its final placements for fresh ICWAI pass outs of June'10 and December'10 batches. Institute provided online facility to the students for filling their CVs for placement. A total of 2405 Students opted for campus placement and out of these around 1300 Students have been placed.

**I) Report of Activities of Taxation Committee -**

Taxation Committee has taken several initiatives through representations before the Revenue Authorities, for upholding the expertise of Cost Accountants and costing issues involved like true and fair assessment of income and demanding statutory recognition of Cost Accountants under Sec.288(2) of the Income Tax Act, 1961 vis-à-vis Clause 314(2) of the Direct Tax Code Bill, 2010. This Committee also developed and placed Concept Papers on various topics of relevant importance, which are being duly considered by the Authorities in affirmative.

#### J) Cost Accounting Standard Board -

During the year 2010-11, nine meetings of the Board were organised. Cost Accounting Standard - 13 (CAS-13) on Cost of Service Cost Centre was finalised during the year by CASB and subsequently approved & released by Council of the Institute. The Council has made the mandatory application of CAS 13 for the members of the profession. During the year, Exposure Draft of revised Cost Accounting Standard -3 on Overheads was finalised and released by the Board. No meeting of the Cost Audit Assurance Standards Board took place during the year 2010-11.

### III. Region & Chapters Activities -

#### Regional Councils & Chapters Co-ordination Committee -

The Committee accepted the recommendation of the respective Regional councils for selection of Best Chapters in to A, B, C and D Category and following Chapters were awarded with a Scroll of Honour and Metal Idol as a mark of their commendable performance during the Year 2010 :

CAT EGO RY	WIRC	SIRC	EIRC	NIRC
A	Ahmedabad Chapter	Hyderabad Chapter	Cuttack-Bhubaneswar Chapter	Chandigarh-Panchkula Chapter
B	Surat South Gujarat Chapter	Coimbatore Chapter	Ranchi Chapter	Lucknow Chapter
C	Aurangabad Chapter	Mysore Chapter	South Orissa Chapter	Jaipur Chapter
D	Jabalpur Chapter	Nellore Chapter	Asansol Chapter	Jodhpur Chapter

#### i. Western India Regional Council :

WIRC News Bulletin is being published every month, which contained information and activities carried out by WIRC and its Chapters in the Region from time to time.

As per the guidelines of The Ministry of Corporate Affairs (MCA) – Government of India, WIRC of ICWAI and its Chapters organized Corporate Awareness Programmes during the Week 14th to 21st Dec, 2010. The first Seminar was organized on the topic 'Investment Outlook 2011', at WIRC premises, on 18th Dec, 2010.

The second Seminar was organized at M.L. Dahanukar College, Vile Parle, Mumbai on 21st Dec, 2010. The topic for discussion was 'Corporate Governance – An Indian Approach'.

Chapters under WIRC, viz., Baroda, Bhopal, Nagpur, Surat South Gujarat also conducted Seminars under India Corporate week.

WIRC and the Chapters in the region conducted 7 programmes at various locations during the India Corporate Week and a large number of members attended the programmes.

As per the direction of The Ministry of Corporate Affairs, WIRC had arranged Investors' Awareness programme on Tuesday, the 13th July, 2010, at Sydenham College of Commerce, Churchgate, Mumbai.

WIRC had organized a Chapters' Meet and a two day residential orientation programme at Mahabaleshwar (MH) from 1st to 3rd October, 2010.

The Chapters' Meet was inaugurated by CMA B.M. Sharma, President, ICWAI on 1st October, 2010.

Chapters' Meet was held on 24th December, 2010, at Kalyan, to coincide with the Regional Cost Conference of WIRC, where Representatives from many Chapters participated.

3rd Students' Conference of WIRC was held on Monday, the 24th January, 2011, by the Baroda Chapter of Cost Accountants.

The Fifth Campus Interview for the students passed in June, 2010 ICWAI Examinations was held at VJTI, Matunga on 9th October, 2010 and Sixth Campus for the candidates passed in December, 2010 ICWAI Examinations was held on 16th April, 2011, at N.M. College of Commerce, Vile Parle (West), Mumbai. A large number of students were recruited by the participating Companies.

## ii. Southern India Regional Council -

National Cost Convention was held at Cherinai on 6<sup>th</sup>, 7<sup>th</sup>, & 8<sup>th</sup> Jan, 2011 with the theme "New Enterprise Challenges – Sustainability & Value Creation".

As part of the Convention, a Practitioners and Students' Convention were also held. The theme was "Building the Profession – Inclusive Growth of CMAs in Practice". Students' Convention was with the Theme: "Technology For Business Productivity".

Regional Cost Convention was held at Madurai on 29<sup>th</sup> & 30<sup>th</sup> Oct, 2010 with the Theme: "Cost Strategies towards Inclusive Growth and Governance".

The 2<sup>nd</sup> CMA Global Management Accounting Summit 2010 was held at Columbo during 29<sup>th</sup>, 30<sup>th</sup> June AND 1<sup>st</sup> July, 2010 in which a delegation from Southern Region with the approval of the Ministry of corporate Affairs, Govt. of India and Central Council comprising Cost and Management Accountants led by Chairman – SIRC attended the Summit.

In connection with the celebration of "India Corporate Week" by the Govt. of India during Dec - 2010, a series of programmes (jointly conducted by MCA and ICWAI) were organised by SIRC throughout South India. In addition, Investor Awareness Programmes were organised by SIRC during 2010 – 11 as per the directives of ICWAI and as a Programme Sponsored by MCA, Govt. of India. SIRC of ICWAI organised a Chapters' Meet on 31<sup>st</sup> Jul, 2010.

A Press Meet was organised on 3<sup>rd</sup> Apr, 2010 at SIRC Premises, on the eve of Campus Recruitment Programme and it was well attended including the representation from the Chennai Doordharshan. Another Press Meet was organised on 9<sup>th</sup> Oct, 2010 at SIRC Premises, on the eve of Campus Recruitment Programme in which many private and Doordharshan channels took part. One more Press Meet was organised on 3<sup>rd</sup> Oct, wherein our President Shri B.M. Sharma, Vice President Shri M. Gopalakrishnan, Dr. I. Ashok, Chairman SIRC and other Regional and Central Council Members of ICWAI participated. During the meet, President highlighted about the future strategies of the Institute.

## iii) Eastern India Regional Council -

The 51<sup>st</sup> AGM of the members of the EIRC was held on 31<sup>st</sup> July 2010. A remarkable improvement in financial performance has been during the year. The number of students registered during the year 2010-2011 is 5878 as against 2976 in the year

2009-10. During the year, 2498 students were enrolled for postal coaching and 2608 students have completed and obtained coaching completion certificates. EIRC published a monthly news letter styled as 'EIRC NEWS' for the members & students. Series of Campus Interviews were held during the year. The following Management Development Programmes were held:

1. On 28<sup>th</sup> Aug, 2010 an open members' meet was organized at EIRC premises.
2. On 4<sup>th</sup> Oct, 2010 a Management Development Programme for members' was organized.
3. A Programme for members' on "Citizen's Charter/Client's Charter" organized on 4<sup>th</sup> Dec, 2010.
4. On 17<sup>th</sup> Dec, 2010 EIRC organized Investors Awareness program Celebrating India Corporate Week.
5. On 18<sup>th</sup> Dec, 2010 a Practitioners' Meet was held at EIRC Premises.
6. On 5<sup>th</sup> Mar, 2011 EIRC organized a discussion meet on Union Budget 2011-12.
7. On 9<sup>th</sup> Apr 2011 EIRC organized a programme on MSME at EIRC Premises.
8. On 21<sup>st</sup> May 2011 EIRC organized a programme on Investors Awareness at EIRC Premises.
9. A Seminar on IFRS was arranged for students on 29<sup>th</sup> Aug, 2010 at EIRC premises.
10. A programme on Soft Skill Development was arranged for Intermediate pursuing students.
11. A workshop on e-filing was arranged where Shri Mrityunjay Acharjee, Head, Internal Audit, Balmer Lawrie and visiting Lecturer, IIM was the Guest Speaker.

## IV. Northern India Regional Council -

The following events took place during the Financial Year

1. Career Fair on 16<sup>th</sup> Nov'2010 at New Delhi
2. Members Meet on Corporate Governance practices & challenges – 17<sup>th</sup> Dec'2010
3. Seminar on cost Accounting standards – 5<sup>th</sup> Feb, 2011.
4. Budget 2011 – An Analysis 11<sup>th</sup> Mar 2011

Chapter's Activities were Investors Enlightened at Allahabad, Inventors Enlightened at Mirzapur, Blood Donation camp, Students Meet, Diwali celebration and Capital Market Instruments at Chandigarh, IFRS Explored at Faridabad, Campus placement, Seminar on Capital Market and Budgeting and Taxation changes and role of Finance in International Trade at Jaipur, Seminar on Role of professional in Micro Economics in Jodhpur.

# Auditors' Report on Consolidated Financial Statements To the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India

1. We have audited the attached Consolidated Financial Statements of the Institute of Cost and Works Accountants of India ("the Institute"), and its four Regional Councils and ninety Chapters (the Institute, the Regional Councils and Chapters collectively referred to as "the Group"), which comprise the Consolidated Balance Sheet as at 31st March, 2011, and the Consolidated Income and Expenditure Account for the year ended on that date, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the Institute's Management and have been prepared on the basis of separate financial statements and other information regarding components that give a true and fair view of the consolidated financial position and consolidated financial performance in accordance with accounting principles generally accepted in India. Our responsibility is to express an opinion on these Consolidated Financial Statements based on our audit.

2. We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the Consolidated Financial Statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and the significant accounting estimates made by the Management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our qualified audit opinion.

3. (a) We did not audit the financial statements of four Regional Councils, whose financial statements reflect total assets of ₹.23,26,44,479 as at 31<sup>st</sup> March, 2011, and total revenues of ₹.14,54,49,161 for the year then ended as considered in the financial statements. These financial statements and other financial information have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the management of the Institute, and our opinion, in so far as it relates to the amounts included in respect of these Regional Councils is based solely on the reports furnished by these auditors

(b) We also did not audit the financial statements of forty two Chapters, whose financial statements reflect total assets of ₹.14,47,76,737 as at 31<sup>st</sup> March, 2011, and total income of ₹.10,10,54,732 for the year then ended have been audited by other chartered accountants. We also did not audit the financial statements of thirty eight Chapters whose financial statements reflect total assets of ₹.21,46,00,989 as at 31<sup>st</sup> March, 2011 and total revenues of ₹.13,78,18,343 for the year then ended have been certified by cost accountants. In so far as it relates to the amounts included in respect of these Chapters, our report is based solely on these certified financial statements, which we have relied upon as provided by the management of the Institute for the purpose of our examination of consolidated financial statements of the ICWAI Group.

(c) We also did not audit the financial statements of ten Chapters, whose financial statements reflect total assets of ₹.2,20,37,304 as at 31<sup>st</sup> March, 2011, and total income of ₹.1,23,11,695 for the year then ended. We further report that in respect of the financial statements of these Chapters we have relied upon the unaudited financial statements as certified by the management of the Institute. Our opinion, so far as it relates to the amounts included in respect of these Chapters is based solely on these certified financial statements. Since these financial statements for the financial year ended 31<sup>st</sup> March, 2011, which were compiled by the management of these Chapters, any adjustments to their balances could have consequential effects on the consolidated financial statements.

(d) As stated in Note B.1 on Schedule 16, in case of three Chapters financial statements as on 31<sup>st</sup> March, 2011 were not available.

4. In so far as it relates to the results of operations and the financial statements of the Institute included in these Consolidated Financial Statements, we draw attention to the following:

(i) As stated in Note B.12 on Schedule 16, no provision has been made for penalty of ₹.111.64 lakhs imposed by CIDCO pending resolution of Institute's appeal for waiver

(ii) As stated in Note B.15 on Schedule 16, title deeds for lease hold land of ₹.0.11 lakhs, free hold lands of ₹.23.01 lakhs and buildings of ₹.5.55 lakhs were not available for our examination.

(iii) The internal control system for transactions with Regional Councils and Chapters needs to be improved and the internal control system of Delhi office also requires further improvement.

5. As stated in Note B.6 on Schedule 16, confirmation of balances from Regional Councils and certain Chapters are awaited. These balances are subject to reconciliation and consequent adjustments as may be necessary, on receipt of such confirmation.

6. As stated in Note B. (iv) (a) on Schedule 16, gratuity liability of ₹.36,18,372 as calculated by LIC has not been provided for.

7. The provisions of ₹.13,103,485 on Schedule 10 under (current liabilities and provisions) include ₹.72,13,485 which represent provision of liabilities of the nature of sundry creditors.

8. As indicated in Note 8 on Schedule 16, there are differences in accounting policies of the Regional Councils the impact of which has not been determined or stated. The policies followed by the Chapters were also not available.

9. We further report that, without considering items 4(ii), 4(iii) 5 and 8 above, the effect of which could not be determined, had the observations made by us in item 4(i) and 6 above been considered, the surplus for the year would have been ₹.38,80,92,645 (as against the reported figure of ₹.40,28,75,017), general fund would have been ₹.117,07,26,126 (as against the reported figure of ₹.118,55,08,498)

10. Subject to the matters referred to in paragraphs 4, 5, 6, 7 and 8 above:

(a) We report that the Consolidated Financial Statements have been prepared by the Institute's Management in accordance with the requirements of Accounting Standard 21 (Consolidated Financial Statements) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (after certain adjustments carried out by the head office, to conform to the Institute's Accounting Policies).

(b) Based on our audit of the Institute and on consideration of the separate audit reports on individual financial statements of the Regional Councils and Chapters and on the other financial information of the components of the Group as referred to above, and the certified financial statements of Chapters and also unaudited financial statements of Chapters as referred to in Para 3(d) above, included in the Consolidated Financial Statements, and to the best of our information and according to the explanations given to us, in our opinion, the attached Consolidated Financial Statements read together with notes thereto give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

i) in the case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Group as at 31<sup>st</sup> March, 2011; and

ii) in the case of the Consolidated Income and Expenditure Account, of the excess of income over the expenditure of the Group for the year ended on that date, on the basis as described in Notes A.4 and A.5 on Schedule 16.

for Gupta & Co.  
Chartered Accountants  
Registration No.:301028E

S.K.Ganguli  
Partner

Membership No. 5622

Place: Kollata

Date: 22<sup>nd</sup> September, 2011

**The Institute of Cost and Works Accountants of India****Balance Sheet as at 31st March, 2011**

Last year 2009-2010 Rs.	PARTICULARS	SCH. NO.	This year 2010- 2011	
			Rs.	Rs.
	<b>INSTITUTE FUND :</b>			
738,121,402	General Fund	(1)		1,185,508,498
5,913,533	Employees' Gratuity Fund	(2)		4,987,633
2,616,686		(3)		2,629,577
4,035,430	Misc. Prize Fund	(4)		4,198,641
94,924,690	Other Funds	(5)		77,920,743
<b>845,611,741</b>	<b>TOTAL</b>			<b>1,275,245,092</b>
	<b>REPRESENTED BY :</b>			
	<b>Fixed Assets :</b>	(6)		
212,902,869	a) Gross Block		279,960,020	
102,918,641	b) Less Depreciation		122,360,772	
109,984,228	c) Net Block			157,599,248
5,119,134	Capital Work in Progress			13,186,429
98,111	Investment	(7)		98,100
818,554,076	Current Assets	(8)	1,155,057,209	
20,270,929	Loans & Advances	(9)	57,233,568	
<b>838,825,005</b>			<b>1,212,290,777</b>	
109,676,410	Less : Current Liabilities & Provisions	(10)	109,228,717	
<b>729,148,595</b>	<b>NET CURRENT ASSETS</b>			<b>1,103,062,060</b>
1,261,673	Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off)			1,299,255
<b>845,611,741</b>	<b>TOTAL</b>			<b>1,275,245,092</b>
	<b>Notes to Accounts</b>	(16)		

**Schedules referred to above form part of the Accounts**

As per our report attached.

For Gupta & Co.  
Chartered Accountants**S. K. Ganguli**  
PartnerMembership No.6622  
Kolkata

Dated : 22nd September, 2011

Rakesh Singh  
Vice PresidentR. N. Pal  
Sr.Director (F&A)M Gopalakrishnan  
President



**Income And Expenditure Account  
for the year ended 31st March, 2011**

Last year 2009-2010 Rs.	PARTICULARS	Sch. No.	This year 2010 - 2011 Rs.
	<b>INCOME :</b>		
15,479,090	Membership & Other Fees	(11)	17,287,212
520,721,975	Tuition & Other Fees	(12)	648,399,322
75,012,230	Examination & Other Fees	(13)	103,595,569
30,533,692	Continuing Education Programme Receipt		34,564,283
7,821,938	National Award and Convention Receipt		14,363,771
814,415	Journal Subscription		930,500
109,550	Advertisement for Journal		298,816
986,692	Rent Receipt		1,183,474
801,911	Sale of Publication		402,593
44,119,582	Interest		54,617,116
5,695,717	Other Income		9,036,002
<b>702,096,792</b>	<b>Total :</b>		<b>884,678,658</b>
	<b>EXPENDITURE :</b>		
132,242,813	Establishment	(14)	140,482,513
61,232,144	Office Expenses	(15)	69,147,468
365,306	Audit Fees		494,255
205,566	Internal Audit Fees		322,593
8,131,915	Travelling & Conveyance		10,580,339
28,221,328	Examination Expenses		38,409,503
16,973,011	Council & Committee Meeting Expenses		19,631,150
1,013,453	Election Expenses incl. Tribunal		1,013,453
5,430,937	Journal Expenses		7,076,113
1,516,073	Membership Subscription To Foreign Bodies		1,692,980
1,710,695	Conference & Meeting International		2,593,769
24,058,081	Continuing Education Programme Expenses		25,987,865
4,543,329	National Award for Cost Excellence Expenses		16,915,627
21,327,967	Professional Development Expenses		9,231,634
69,392,717	Coaching Expenses		85,282,158
26,038,275	Study Materials & Prospectus Consumed		30,207,314
199,468	Publication Stock Consumed		241,982
1,616,613	Non Moving Stock Written Off		610,814
806,491	Sundry Debtors - Written Off		1,343,079
18,477,898	Depreciation	(6)	20,903,318
<b>423,504,080</b>	<b>TOTAL</b>		<b>482,167,927</b>
<b>278,592,712</b>	<b>Balance being excess of Income over Expenditure c/d</b>		<b>402,510,731</b>
1,262,652	Prior Period Adjustment		364,286
<b>279,855,364</b>	<b>Balance being surplus of Income over Expenditure transferred to General Fund</b>		<b>402,875,017</b>
	<b>Notes to Accounts</b>	(16)	

**Schedules referred to above form part of the Accounts**

As per our report attached.

For Gupta & Co.  
Chartered Accountants  
S. K. Ganguli  
Partner  
Membership No.6622  
Kolkata  
Dated : 22nd September, 2011

Rakesh Singh  
Vice President

M.Gopalakrishnan  
President

R. N. Pal  
Sr.Director (F&A)

3607 4011-4

**SCHEDULE FORMING PART OF ACCOUNTS****SCHEDULE NO.1 : GENERAL FUND as at 31st March,2011**

Last year 2009-2010 Rs.	PARTICULARS	This year 2010 - 2011	
		Rs.	Rs.
448,877,006	Balance as per Previous Balance Sheet		738,121,402
	Add :		
3,250,140	i) Capitalization of Chapter's Land & Building	39,764,632	39,764,632
452,127,146			
	Less :		
	i) Adjustment against		
501,893	Stock of Study Material & Prospectus	3,597,151	3,597,151
451,625,253			
955,185	Add : Entrance Fees (Member)	1,307,398	
5,685,600	Registration Fees (Student)	7,037,200	8,344,598
458,266,038			
279,855,364	Add : Net Surplus for the year as per Income & Expenditure Account		402,875,017
738,121,402	Total		1,185,508,498

**SCHEDULE NO. 2 : EMPLOYEES' GRATUITY FUND as at 31st March,2011**

5285261	Balance as per Previous Balance Sheet		5,913,533
757,305	Add : Contribution for the year		306,693
6,042,566			6,220,226
-	Less : Amount Paid to Trust		1,232,593
129,033	Less : Gratuity paid to Employees' during the year		
5,913,533	Total		4,987,633

**SCHEDULE NO. 3 : EMPLOYEES' BENEVOLENT FUND as at 31st March,2011**

2183418	Balance as per Previous Balance Sheet		2,616,686
421,782	Add : Contribution during the year		7,518
42,500	Add : Interest earned on Fixed Deposit of Fund for the year		39,543
31,014	Less : Paid to Employees during the year		34,170
2,616,686	Total		2,629,577

**SCHEDULE NO. 4 : MISC. PRIZE FUND as at 31st March,2011**

3,738,196	Balance as per Previous Balance Sheet		4,035,430
246,316	Add : Addition during the year		286,180
206,831	Add : Income credited during the year		103,260
(155,913)	Less : Cost of the prize		(226,229)
4,035,430	Total		4,198,641

**SCHEDULE NO. 5 : OTHER FUND as at 31st March,2011**

48,879,998	Building Fund		49,532,129
7,709,827	Library Fund		17,354,752
400,000	Silver Jubilee Fund		256,141
323,849	CASB Fund		286,098
37,611,016	Misc. Fund		10,491,623
94,924,690	Total		77,920,743

SCHEDULE NO. 6 :

## FIXED ASSETS

as at 31st March, 2011

Description of Assets	Gross Block				Depreciation/Amortisation				Net Block	
	Opening Cost 01.04.10	Addition during the period	Less : Sale/ Adjustment of Fixed Assets during the period	Total as on 31.03.2011	Upto 01.04.10	For the year	Add/(Less) : Depreciation Adjustment of Fixed Assets during the year	Upto 31.03.2011	This year 2010-2011	Last year 2009 - 2010
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
<b>Tangible Assets :</b>										
FREEHOLD LAND	18,531,761	5,496,433	-	24,028,194	283,463	-	-	283,463	23,744,731	18,248,298
LEASEHOLD LAND	6,505,802	475,913	-	6,981,715	1,546,450	102,878	-	1,649,328	5,332,387	4,959,352
FREEHOLD BUILDING	102,619,730	45,738,584	-	148,358,314	46,416,587	8,409,676	-	54,826,263	93,532,051	56,203,143
FURNITURE & FITTINGS	23,832,898	3,755,026	-	27,587,924	10,761,287	1,967,397	-	12,728,684	14,859,240	13,071,611
LIBRARY BOOKS	8,808,784	-	217,384	8,591,400	8,808,784	1,353,315	(1,570,699)	8,591,400	-	-
OFFICE EQUIPMENTS	20,339,631	3,995,330	-	24,334,961	9,718,389	2,504,187	-	12,222,576	12,112,385	10,621,242
GENERATORS	1,829,698	1,054,161	-	2,883,859	1,031,495	223,010	-	1,254,505	1,629,354	798,203
LIFT	416,062	850,000	-	1,266,062	387,072	131,849	-	518,921	747,141	28,990
MOTOR CAR	499,939	-	-	499,939	214,870	50,024	-	264,894	235,045	285,069
COMPUTER	26,470,507	2,300,543	-	28,771,050	21,736,861	2,950,035	109,512	24,796,408	3,974,642	4,733,646
CYCLE	5,528	2,840	-	8,368	5,528	-	-	5,528	2,840	-
<b>Intangible Assets :</b>										
SOFTWARE	3,042,529	3,605,705	-	6,648,234	2,007,855	3,210,947	-	5,218,802	1,429,432	1,034,674
Previous Year	212,902,869	67,274,535	217,384	279,960,828	102,918,641	20,903,318	(1,461,187)	122,360,772	157,599,248	109,984,228
	197,168,957	17,440,697	(1,706,785)	212,902,869	97,152,933	18,477,898	(12,712,190)	102,918,641	157,599,248	100,016,024

Capital-work in Progress

13,186,429

5,119,134

**SCHEDULE NO. 7 : INVESTMENT (AT COST) as at 31st March, 2011**

Last year 2009-2010 Rs.	PARTICULARS	This year 2010-2011	
		Rs.	Rs.
	<b>SHARES OF CO-OPERATIVE TRUST :</b>		
	50 Shares of Rs.10/- each in		
500	Rohit Chambers Premises Co-operative Society Limited, Mumbai (earlier described as Jai Brindaban Premises Trust Fund, Bombay)		500
11	- Coimbatore Co-operative Housing Society Ltd. (Surrendered)		
	<b>MUTUAL FUND (UTI 64 &amp; TATA OPPORTUNITY FUND)</b>		
16,100	- Madurai Chapter		16,100
81,500	- Nellore Pearl City Chapter		81,500
98,111	<b>TOTAL</b>		<b>98,100</b>

**SCHEDULE NO. 8 : CURRENT ASSETS as at 31st March, 2011**

	<b>Stock :</b>		
2,293,134	- Publication Stock (at Cost)		3,087,267
599,367	- Paper Stock (at Cost)		67,500
20,571,252	- Study Material incl. Prospectus Stock (at Cost)		20,812,422
1,424,015	- Stock of Other Material (at Cost)		1,021,828
7,207,071	Sundry Debtors		9,335,119
26,150,213	Other Receivables		17,567,355
	<b>Cash and Bank Balances :</b>		
871,699	Cash in hand	1,492,584	
1,055	Postage Stamp in hand	100,589	
17,006,699	Cheques in hand		
	Balances with Scheduled Banks :		
24,459,826	On Current Account	32,864,376	
25,271,063	On Savings Account	30,143,113	64,600,662
692,698,682	Fixed Deposits with Banks :		1,038,565,056
818,554,076	<b>Total</b>		<b>1,155,057,209</b>

**SCHEDULE NO. 9 : LOANS AND ADVANCES as at 31st March, 2011**

1,542,531	Building Loan to Employees		885,959
22,473	Vehicle Purchase Advance to Employees		687,991
9,579,429	Other Advances		44,792,642
922,172	Festival Advance to Employees		941,300
844,911	Advance Membership Subscription to Foreign Bodies		947,380
2,771,108	TDS Receivable		4,925,803
1,897,602	Prepaid Expenses		1,723,722
2,690,703	Deposit		2,328,771
20,270,929	<b>Total</b>		<b>57,233,568</b>

**SCHEDULE NO. 10 : CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS as at 31st March, 2011**

	<b>Current Liabilities :</b>		
5,009,345	Library Deposit		5,450,312
10,053,883	Sundry Creditors		12,163,251
88,920,468	Other Liabilities		78,301,327
121,478	TDS Payable		210,342
5,571,236	Provisions		13,103,485
109,676,410	<b>Total</b>		<b>109,228,717</b>

**SCHEDULE OF PROVISIONS :**

	<b>Head Quarters</b>		
-	- Professional Development		3,500,000
-	- Staff Welfare		1,200,000
40,000	- Grants to Co-operative Credit Society		1,040,000
150,000	- Rates and Taxes		150,000
	<b>Provision for Expenses</b>		
1,453,235	- SIRC		2,687,655
1,789,588	- NIRC		1,928,192
2,138,413	- WIRC		2,597,638
5,571,236	<b>Total</b>		<b>13,103,485</b>

**SCHEDULE NO.11 : MEMBERSHIP & OTHER FEES : for the year ended 31st March,2011**

Last year 2009 - 2010	PARTICULARS	This year 2010 - 2011
Rs.		Rs..
11,529,198	Annual Membership Fees	13,692,585
835,679	Members Certificate of Practice Fees	877,979
1,427,872	Grad C.W.A. Fees	1,535,536
22,500	Members Complaint / Restoration Fees	10,000
397,523	Certified Facilitation Centre Fees	66,500
1,266,318	Membership & Certification Fees - IMA(USA)	1,104,612
15,479,090	<b>Total</b>	<b>17,287,212</b>

**SCHEDULE NO.12 : TUITION AND OTHER FEES : for the year ended 31st March,2011**

8,528,400	Student Registration Fees	10,555,800
18,276,540	Practical Training Registration Fees	24,306,249
675,880	Practical Training Exemption Fees	924,500
268,065,317	Tuition Fees	336,281,779
13,213,544	CAT Course Income	13,023,947
105,602,192	Computer Training Fees	131,339,450
86,652,256	Service Fees	108,009,822
3,654,980	Revalidation of Coaching Completion Certificates Fees	3,063,805
9,425,659	Sale of Prospectus	15,001,823
1,850,142	Sale of Study Notes	529,158
4,709,135	Library Subscription	5,315,641
67,930	Sale of Postal Coaching,Revalidation & Denovo Forms	47,348
520,721,975	<b>Total</b>	<b>648,399,322</b>

**SCHEDULE NO.13 : EXAMINATION AND OTHER FEES : for the year ended 31st March,2011**

69,624,617	Examination Fees	97,652,654
784,363	Verification of Answers Paper Fees	982,722
1,870,530	Sale of Suggested Answer including Scanner	1,744,982
2,732,720	Sale of Exam. Forms	3,215,211
75,012,230	<b>Total</b>	<b>103,595,569</b>

**SCHEDULE NO.14 : ESTABLISHMENT for the year ended 31st March,2011**

96,787,688	Salaries & Allowances	112,831,809
15,266,383	Employer's Cont. to Employees' Gratuity Fund	2,783,285
7,168,955	Employer's Cont. to Employees' Provident Fund	9,495,424
119,188	Employer's Cont. to Employees' Benevolent Fund	141,512
6,091,705	Employer's Cont. to Employees' Leave Encashment	7,827,441
2,418,422	Employees' Leave Encashment - Existing	2,531,018
2,578,212	Medical Expenses	3,334,835
519,200	Leave Travel Allowance to Employees	665,100
216,185	RPFC Administration & E.D.L.I. Inspection Charges	415,480
1,076,875	Training & Development (H.R.D.)	466,809
132,242,813	<b>Total</b>	<b>140,482,513</b>

**SCHEDULE NO.15 : OFFICE EXPENSES for the year ended 31st March,2011**

6,374,435	Printing & Stationery	6,620,961
6,929,790	Postage, Telegrams, Telephones & Fax	7,886,565
4,674,368	Electricity Charges	5,314,286
146,009	Generator Expenses	716,854
1,534,714	Rates & Taxes	1,456,148
161,573	Insurance	273,279
10,099,049	Repair & Maintenance	7,175,965
1,330,061	Car Expenses	1,964,022
14,300	Interest on Caution Money Deposit	6,800
2,434,826	Study Material Distribution Expenses	2,438,759
1,526,807	Legal Charges	2,715,053
364,510	Bank Charges	277,727
2,128,200	Computer Maintenance Expenses	2,758,332
2,224,474	Public Relation Expenses	2,720,046
443,811	Watch & Ward Expenses	868,424
654,721	Books & Periodicals	652,466
130,754	Delegate Fee	167,719
139,220	Gazette Notification	133,346
2,413,102	Staff Welfare	3,264,728
2,568,702	Rent	4,443,444
8,949,753	Administrative Charges	7,869,856
5,988,965	Sundry Expenses	9,421,898
61,232,144	<b>Total</b>	<b>69,147,468</b>

## **NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2011**

### **Schedule - 16**

#### **A. Significant Accounting Policies:**

##### **1. Basis for preparation of Financial Statements :**

The Financial Statements are prepared under the historical cost convention, the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, the applicable Accounting Standards, the relevant provisions of the Cost and Works Accountants Act, 1959, as amended by the Cost and Works Accountants (Amendment) Act, 2006 and are on accrual basis unless otherwise stated.

##### **2. Basis of Consolidation:**

The financial statements of the HQ and its four Regional Councils and Ninety One Chapters are consolidated on a line-by-line basis by adding together the book values of like items of assets and liabilities, income and expenses, after eliminating all material intra-group balances and intra-group transactions resulting in unrealized Surplus and Deficit and making necessary adjustments wherever required for non-uniform accounting policies.

##### **3. Entrance Fee**

Entrance Fee from members is capitalized.

##### **4. Registration Fee**

Registration Fee received from students to the extent of 2/5<sup>th</sup> thereof is capitalized.

##### **5. Revenue Recognition :**

The Institute recognizes significant items of income on the following basis:-

###### **(a) Members' Subscription**

Revenue in respect of Members' Subscription and Certificate of Practice Fee is recognized where there is certainty with respect to the receipt of such amount.

###### **(b) Tuition and other Fees**

Revenue in respect of Postal and Oral Tuition Fees are recognized as and when the student is enrolled.

###### **(c) Sale of Publication**

Revenue in respect of sale of publications is recognized when such publications are transferred to a user for a price.

###### **(d) Examination Fees**

Revenue in respect of Examination Fees is recognized as and when received.

##### **(e) Others**

Revenue from Programme and Research Fee is recognized as and when such activity is undertaken.

##### **(f) Interest**

Income from interest on Fixed Deposit with Banks is recognized on time proportion basis taking into account the amount outstanding and the applicable rate.

(g) Income from Investments is recognized as and when the right to receive the payment is established.

##### **6. Expenditure:**

The expenditure is recognized on accrual basis including expenses related to postal and oral coaching except in the following cases:

(i) The Annual Grants to Chapters are recognized as and when disbursed.

(ii) Expenses incurred for Elections are recognized proportionately over the term of the Council.

##### **7. Fixed Assets:**

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Cost comprises the purchase price and any cost, attributable to bringing the asset to its working condition for its intended use. Assets under creation are shown as capital work-in-progress.

##### **8. Depreciation/Amortization :**

(a) Depreciation on Fixed Assets is provided on written down value method as per Income Tax Act, 1961.

(b) Leasehold land is amortized over the Lease period. The premium paid for acquisition of Lease Hold Land is amortized over the period of lease. The ground rent, if any, are recognized as expense in the year for which such charges are due or payable.

(c) Library books are depreciated at 100% in the year of purchase.

##### **9. Investments :**

Long term investments are stated at cost. However, when there is a decline other than temporary, in the value of long term investments, carrying amount is reduced to recognize the decline.

##### **10. Inventories :**

Publication stock, Study Materials and Paper Stock including Prospectus stock etc. are valued at Cost or Net Realizable Value, which is lower. Cost of

Publications and that of Study Materials is determined on weighted average basis and cost of paper is determined on first-in-first-out basis.

#### **11. Accounting for Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:**

(i) A provision is recognized:-

- (a) when there is present obligation as a result of past event;
- (b) it is probable that an outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the obligation; and
- (c) a reliable estimate can be made of the amount of obligation.

(ii) No provision is recognized for:

- (a) any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Institute;

- (b) any present obligation that arises from past events but is not recognized because it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation or a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are disclosed as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for except in extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

#### **12. Foreign Currency Transactions:**

Transactions in foreign currency are denominated at the exchange rate prevailing on the transaction date. Monetary items are reported by using the closing rate. Exchanged items arising on the settlement of monetary items or reporting the monetary items at rate different from those at which they were initially recorded or reported, are recognized as income or as expenses in the period in which they arise.

#### **13. Employee Benefits:**

i) Short term benefit:

The short term employee benefit is recognized as expense when claimed during the period. Unclaimed amount is provided for.

(ii) Post employment benefit such as P.F, Gratuity, Leave Encashment etc. are provided as applicable to respective Regional Councils and Chapters.

#### **14. Impairment of Assets :**

At the Balance Sheet date impaired assets, if any are identified and necessary provision as required is made.

#### **15. Prior Period income/expenditure:**

Prior period items which arise in the current period as a result of errors or omissions in the preparation of financial statements in one or more prior periods are separately disclosed in the Income & Expenditure Account.

#### **B. Notes forming part of Accounts**

1. The consolidated financial statement is prepared considering Head Quarters, four Regional Councils and Ninety Chapters except Jhagrakhand-Chirimiri, Rajkot & Ajmer-Bhilwara ( refer – Annexure ).

2. Exemption in respect of Income Tax has been granted u/s 10(23A) read with Section 11 of the Income Tax Act, 1961. Accordingly, no provision for income tax has been made.

3. All Prize Funds maintained by the Institute have been incorporated in the accounts together with relevant investment in Fixed Deposit thereof in terms of the decision of the Council. The funds have been sponsored by the different donors.

4. Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off) includes :

(i) Election related expenses (partial) of Headquarters amounting to Rs.10,96,892/- (2011-15) to be recognized in the next four financial years as per Accounting Policy [Ref. Policy No. 6 (ii)].

(ii) Deferred Revenue Expenditure of Rs. 202,363/- (Kalyan-Ambarnath -Rs. 81,600/-, Gurgaon - Rs.8,923/- & Jaipur - Rs.111,840/-

5. Other Advances include Rs. 1,36,097/- (previous year Rs.2,88,384/-) due from Certain Former Council Member owing to disallowances by the MCA, Govt. of India and presently the matter is subjudice. However Rs.1,52,287/- has been adjusted on the death of a member.

6. The balance with Institute's Current Accounts and Loans & Advances are subject to confirmation.

7. As at 31<sup>st</sup> March, 2011, there is no amount including Interest (thereon payable to Micro, Small and Medium Enterprises as defined under "The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006", based on the information available with the Institute.

8. (i) **Head Quarters**

(a) Provident Fund contributions are made to the Institute of Cost and Works Accountant of India Employees Provident Fund Trust.

(b) The liability in respect of Gratuity, as per the Gratuity Act, 1972 (as amended) is Recognized on the basis contribution made to the LIC against the Group Gratuity Policy.

(c) The liability in respect of leave encashment is recognized on the basis of contribution to an Approved Leave Encashment Fund maintained with the LIC.

(ii) **WIRC**

(a) The liability in respect of Gratuity, as per the Gratuity Act, 1972 (as amended) is recognized on the basis of contribution made to the LIC against Group Gratuity Policy.

(b) Reimbursement of expenses are made on cash basis.

(c) Computer software has been amortized over a period of three years and the impact is not readily ascertainable.

(iii) **SIRC**

(a) Contribution to Provident Fund, Family Pension Fund and Deposit Linked Insurance are accounted for on accrual basis.

(b) The liability in respect of Gratuity and Leave encashment is recognized on the basis of yearly premium paid to LIC on the basis of actuarial valuation.

(c) Coaching Fees are recognized over the actual period of coaching and the impact due to this change is not readily ascertainable.

(d) Incomes other than Coaching Fees, Commission on Sales, Programme Fees, Interest Income are recognized on receipt basis. The impact due to this change is not readily ascertainable.

(e) Depreciation on Fixed Assets have been provided for the full year, irrespective of the date of purchase and the impact is not readily ascertainable.

(f) Computer software has been amortized over a period of three years and the impact is not readily ascertainable.

(iv) **EIRC**

(a) Gratuity Fund is maintained with the LIC with an increased ceiling of Rs.10,00,000. The consequent gratuity liability of Rs. 36,18,372 as calculated by LIC has not been provided in the Annual Accounts for the financial year 2010-2011.

(b) Contribution to Employees Provident Fund is deposited to Public Provident Account maintained with SBI However Regional Council has decided to get registration with Statutory Provident Fund.

(v) **NIRC**

(a) The liability in respect of Gratuity, b) is recognized on the basis of contribution made to the LIC against Group Gratuity Policy.

(b) A provision of Rs. 19,27,692 has been kept to take care-off any write off that may be required regarding obsolete stock of books towards loan given to chapters and interest accrued thereon.

(c) Computer software has been amortized over a period of three years and the impact is not readily ascertainable.

9. Expenditure on ongoing Renovation Work for the current year and previous year are as follows :

Sl. No.	H.Q./Regional Council/Chapter	Current Year (2010-11)	Previous Year (2009-10)
01.	Head Quarters	107,45,450	-
02.	Cochin	6,63,475	1,26,339
03.	Thrissur	20,050	-
04.	Visakhapatnam	-	53,250
05.	Cuttack-Bhubaneswar	62,081	-
06.	Dhanbad-Sindhri	391,905	3,91,905
07.	Asansol	-	14,74,172
08.	Durgapur	-	17,70,000
09.	Kota	13,03,468	13,03,468
	<b>Total</b>	<b>131,86,429</b>	<b>51,19,134</b>

10. Following amounts has been written off during the current year and previous year :



Sl. No	Items	Current Year (2010-11)	Previous Year (2009-10)
<b>A</b>	<b>Obsolete Study Material &amp; Suggested Answer</b>		
01.	Head Quarters	68,181	14,88,498
02.	Vijayawada	783	-
03.	Visakhapatnam	5,580	19,473
04.	Bhalai	46,444	-
05.	Bhopal	2,70,313	-
06.	Jabalpur	89	-
07.	Nasik-Ojhar	47,115	-
08.	Surat-South Gujarat	4,461	-
09.	Chandigarh-Panchkula	1,58,018	-
10.	Gorakhpur	9,830	-
11.	NIRC	-	19,153
12.	Jalandhar	-	2,000
13.	Cuttack-Bhubaneswar	-	8,489
14.	Pune	-	79,000
	<b>Total</b>	<b>6,10,814</b>	<b>16,16,613</b>
<b>B</b>	<b>Old &amp; Non Recoverable Debtors</b>		
01.	Head Quarters	880,319	5,66,491
02.	Visakhapatnam	18,000	-
03.	EIRC	22,105	-
04.	Durgapur	221,825	-
05.	Rourkela	1,000	-
06.	Gorakhpur	9,830	-
07.	Pune	1,00,000	1,89,558
08.	Hardwar-Rishikesh	90,000	-
09.	South-Orissa	-	10,000
10.	Patna	-	17,657
11.	Bokaro Steel City	-	13,000
12.	Faridabad	-	9,785
	<b>Total</b>	<b>13,43,079</b>	<b>8,06,491</b>

11. Following provision has been made during the current year and previous year :

Sl. No	Items	Current Year (2010-11)	Previous Year (2009-10)
01.	Head Quarters		
	Professional Development	35,00,000	-
	Staff Welfare	12,00,000	-
	Grants to Co-operative Credit Society	10,40,000	40,000
	Rates and Taxes	1,50,000	1,50,000
02.	SIRC	26,87,655	14,53,235
03.	NIRC	19,28,192	17,89,588
04.	WIRC	25,97,638	21,38,413
	<b>Total</b>	<b>1,31,03,485</b>	<b>55,71,236</b>

12. A leasehold Land was allotted to the Institute by CIDCO, Navi Mumbai and due to delay in construction a penalty amounting to Rs.111.64 lacs was imposed up to July, 2011. Application has been made to the authority for waiver of penalty and grant of additional time to complete the construction. The decision is still awaited and no adjustment has been made in the current year.

13. Audit Fees for the current year includes Statutory Audit Fees of Rs.1,21,330/- (previous year Rs.1,10,300/-) and Audit Fees for Regional Councils and Chapter amounting to Rs.3,72,925/- (previous year Rs.2,55,006/-)

14. During the year expenditure in foreign currency was :

- Membership Fees - Rs.16,92,980 (Previous year Rs.15,16,073/-)
- Foreign Travel - Rs.13,74,724 (Previous year Rs.9,01,401/-)

15. Summarized position in respect of the title deeds of Land & Building capitalized in the books of Head quarters are as follows:

(Rs. In.lacs)

Classification of Deed Available at HQ	Freehold Land	Leasehold Land	Building
Original	60.05	3.11	361.11
Photocopy	79.8	56.44	120.21
Not available	23.01	0.11	5.55
<b>Total</b>	<b>162.86</b>	<b>59.66</b>	<b>486.87</b>

16. Previous year's figures have been regrouped and rearranged wherever necessary to conform to the current year's groupings.

Signatures to Schedule No. 1 to 16

Rakesh Singh  
Vice-President

M. Gopalakrishnan  
President

R.N.Pal  
Sr. Director - F&A

Date : 22<sup>nd</sup> September, 2011

**STATUS OF RECEIPT OF ANNUAL ACCOUNTS FOR THE F.Y. 2010 - 11****Annexure - 1**

<b>CHAPTERS UNDER WIRC</b>	
SL.NO.	NAME OF THE CHAPTERS
1	WIRC
2	AHMEDABAD
3	AURANGABAD
4	BARODA
5	BHILAI
6	BHOPAL
7	BILASPUR
8	CHANDRAPUR
9	GOA
10	INDORE-DEWAS
11	JABALPUR
12	JHAGRAKHAND-CHIRIMIRI #
13	KALYAN AMBARNATH
14	KOLHAPUR-SANGLI
15	KORBA
16	KONKAN
17	KUTCH-GANDHIDHAM
18	NAGPUR
19	NAVI-MUMBAI
20	NASIK-OIHAR
21	PUNE
22	RAIPUR
23	RAJKOT #
24	SURAT-SOUTH GUJARAT
25	VINDHYANAGAR

<b>CHAPTERS UNDER SIRC</b>	
SL.NO.	NAME OF THE CHAPTERS
1	SIRC
2	BANGALORE
3	BHADRAVATI-SHIMOGA
4	COCHIN
5	COIMBATORE
6	GODAVARI
7	HYDERABAD
8	KOTHAGUDEM
9	KOTTAYAM
10	MADURAI
11	MANGALORE
12	METTUR SALEM
13	MYSORE
14	NELLAI PEARL CITY
15	NELLORE
16	NEYVELI
17	PALAKKAD
18	PONDICHERRY
19	RANIPET VELLORE
20	TIRUCHIRAPALLI
21	THRISSUR
22	TRIVANDRUM
23	UKKUNAGARAM
24	VIJAYAWADA
25	VISAKHAPATNAM

<b>CHAPTERS UNDER EIRC</b>	
SL.NO.	NAME OF THE CHAPTERS
1	EIRC
2	AGARTALA
3	ASANSOL
4	BOKARO STEEL CITY
5	CUTTACK-BHUBANESWAR
6	DHANBAD-SINDRI
7	DURGAPUR
8	GUWAHATI
9	HAZARIBAGH
10	HOWRAH
11	JAIPUR-KEONJHAR
12	JAMSHEDPUR
13	KHARAGPUR
14	NAIHATI-ICHAPUR
15	PATNA
16	RAJPUR
17	RANCHI
18	ROURKELA
19	SAMBALPUR
20	SERAMPORE
21	SILCHAR
22	SILIGURI-GANGTOK
23	SOUTH ORISSA
24	TALCHER-ANGUL

<b>CHAPTERS UNDER NIRC</b>	
SL.NO.	NAME OF THE CHAPTERS
1	NIRC
2	AJMER-BHILWARA #
3	ALLAHABAD
4	CHANDIGARH-PANCHKULA
5	DEHRADUN
6	FARIDABAD
7	GHAZIABAD
8	GORAKHPUR
9	GURGAON
10	HARDWAR-RISHIKESH
11	JAIPUR
12	JALANDHAR
13	JAMMU-SRINAGAR
14	JHANSI
15	JODHPUR
16	KANPUR
17	KOTA
18	LUCKNOW
19	LUDHIANA
20	NANGAL
21	NOIDA
22	PATIALA
23	UDAIPUR

#

**Not included**